



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10—मार्च 16, 2012 (फाल्गुन 20, 1933)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10—MARCH 16, 2012 (PHALGUNA 20, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2012

(सेना शाखा)

सं. 103, दिनांक 1 फरवरी 2012--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की
सहर्ष नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 128 नियमित पाठ्यक्रम (128 डाइरेक्ट एंट्री, 118 एनडीए तथा 95 एसीसी) के कैंडिडेटों को सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2011 से तथा इनमें से एक जीसी जिसकी आईसी संख्या 75581K है जो आयोग के समय एलएमसी था, शेष-1 होने के बाद 19 जुलाई 2011 पूर्वाह्न से, स्थायी रूप से विशेष सेना अनुदेश 4एस/74 (डाइरेक्ट एंट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एनडीए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (एसीसी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है:--

आईसी संख्या, नाम और आर्म/सर्विस

(आईसी-75296एल) रामकुमार बी, इंफैंट्री

(आईसी-75297एम) राघव स्वरूप गुप्ता, इंफैंट्री

(आईसी-75298डब्ल्यू) शिंदे प्रशांत पंदरीनाथ, एसी

(आईसी-75299वाई) रोहित शेखर, इंफैंट्री

(आईसी-75300एच) सौरभ काबरा, इंफैंट्री

(आईसी-75301एल) सुवीर राठौर, इंफैंट्री

(आईसी-75302एन) अभिमन्यु शर्मा, इंफैंट्री

(आईसी-75303डब्ल्यू) नरेन्द्र सिंह शेखावत, इंफैंट्री

(आईसी-75304वाई) पार्थ चंदेल, इंफैंट्री

(आईसी-75305एफ) पीयूष सिंह, आर्टी

(आईसी-75306के) मोहित शर्मा, एएससी

(आईसी-75307एम) वासू बनाथिया, इंफैंट्री

(आईसी-75308पी) मो. अर्शिल मुहीत, एएडी	(आईसी-75341एम) सुधीर कुमार काला, एसी
(आईसी-75309एक्स) अभिषेक शर्मा, इंफैन्ट्री	(आईसी-75342पी) समरजीत सिंह देहल, इंफैन्ट्री
(आईसी-75310एम) हिमांशु थपलियाल, मैक इंफैन्ट्री	(आईसी-75343एक्स) अमित कुमार त्यागी, इंफैन्ट्री
(आईसी-75311पी) दिनेश चाहर, आर्टी	(आईसी-75344ए) अर्द्धेन्दु कुमार, मैक इंफैन्ट्री
(आईसी-75312एक्स) शक्ति सिंह, आर्टी	(आईसी-75345एच) मयंक मिश्रा, आर्टी
(आईसी-75313ए) जुनैद बिनी स्यदैन बेग, एसी	(आईसी-75346एल) राजीव कुमार साहू, सिग्नल्स
(आईसी-75314एच) टी अनुराग, इंफैन्ट्री	(आईसी-75347एन) नीरज नन्दकुमार, आर्टी
(आईसी-75315एल) मनोज कन्वाल, एओसी	(आईसी-75348डब्ल्यू) प्रवीण कुमार तिवारी, इंफैन्ट्री
(आईसी-75316एन) अर्जुन पंवर, इंजीनियर्स	(आईसी-75349वाई) सुमन्त त्यागी, आर्टी
(आईसी-75317डब्ल्यू) अमित कुमार, इंफैन्ट्री	(आईसी-75350एन) अखिल कुमार त्रिपाठी, इंफैन्ट्री
(आईसी-75318वाई) हुमेश टुटेजा, आर्टी	(आईसी-75351डब्ल्यू) अमर विजयकुमार बोम्बाटकार, इंफैन्ट्री
(आईसी-75319एफ) विनायक गुप्ता, आर्टी	(आईसी-75352वाई) प्रवीण नन्दकुमार काले, इंफैन्ट्री
(आईसी-75320डब्ल्यू) श्वेतांक त्यागी, आर्टी	(आईसी-75353एफ) हरीश बूरा, इंफैन्ट्री
(आईसी-75321वाई) दिवाकर कुमार, एओसी	(आईसी-75354के) कूना अनिल कुमार, आर्टी
(आईसी-75322एफ) आनन्द नाशिककर, इंफैन्ट्री	(आईसी-75355एम) सुरेन्द्र सिंह, आर्टी
(आईसी-75323के) अक्षय राजेन्द्र पिसाल, आर्टी	(आईसी-75356पी) एम आर सुहास, इंफैन्ट्री
(आईसी-75324एम) शाश्वत कुमार, आर्टी	(आईसी-75357एक्स) हर्ष गुप्ता, इंफैन्ट्री
(आईसी-75325पी) आनन्द कुमार तिवारी, इंफैन्ट्री	(आईसी-75358ए) राजकुमार, इन्ट
(आईसी-75326एक्स) लोकेन्द्र पटेल, एविएशन	(आईसी-75359एच) कर्मवीर बाजरोलिया, इंफैन्ट्री
(आईसी-75327ए) सार्थक त्यागी, इंफैन्ट्री	(आईसी-75360एक्स) गोविन्द सिंह कार्की, इंफैन्ट्री
(आईसी-75328एच) सुशान्त गौड, आर्टी	(आईसी-75361ए) अश्विनी कुमार, सिग्नल्स
(आईसी-75329एल) सी वी एस निखिल, इंफैन्ट्री	(आईसी-75362एच) विमल रॉय, इंफैन्ट्री
(आईसी-75330ए) प्रवेश कुमार, इंफैन्ट्री	(आईसी-75363एल) ऋत्नापा, इंफैन्ट्री
(आईसी-75331एच) संदीप पटनायक, एएससी	(आईसी-75364एन) सतविंदर सिंह, आर्टी
(आईसी-75332एल) गोपा कुमार जी, इंफैन्ट्री	(आईसी-75365डब्ल्यू) सुची ब्रत मंडल, इंफैन्ट्री
(आईसी-75333एन) सिंह अभिषेक नेपाल सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-75366वाई) मोरे राहुल तानाजी, ईएमई
(आईसी-75334डब्ल्यू) आशुतोष शुक्ला, आर्टी	(आईसी-75367एफ) अमित प्रताप सिंह, आर्टी
(आईसी-75335वाई) पंकज बिष्ट, एएडी	(आईसी-75368के) सुदेश जे, आर्टी
(आईसी-75336एफ) भुवन विक्रम, आर्टी	(आईसी-75369एम) सुमित शर्मा, इंफैन्ट्री
(आईसी-75337ए) सुखविन्दर सिंह, ईएमई	(आईसी-75370एफ) आलोक भास्कर, इंफैन्ट्री
(आईसी-75338एम) दयानंद सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-75371के) अम्बुज, एसी
(आईसी-75339पी) नकुल शर्मा, इंफैन्ट्री	(आईसी-75372एम) आशिष कुमार सिंह, एएससी
(आईसी-75340के) अमेत विक्रम, इंफैन्ट्री	(आईसी-75373पी) तरूण भारद्वाज, इंफैन्ट्री

(आईसी-75374एक्स) आर कौशल, आर्टी	(आईसी-75408ए) रजनीश शर्मा, एसी
(आईसी-75375ए) योगेश कुमार शुक्ला, एविएशन	(आईसी-75409एच) मनीष, आर्टी
(आईसी-75376एच) रणजितसिंह नितीन सोनवणे, इंफैन्ट्री	(आईसी-75410एक्स) विक्रान्त पाल, इंफैन्ट्री
(आईसी-75377एल) जी सतीश कुमार, आर्टी	(आईसी-75411ए) मुनित सिंह, इंफैन्ट्री
(आईसी-75378एन) ललित काण्डपाल, इंफैन्ट्री	(आईसी-75412एच) गगनदीप सिंह, एएससी
(आईसी-75379डब्ल्यू) पुनीत चौधरी, ईएमई	(आईसी-75413एल) सुधीर कुमार, एओसी
(आईसी-75380एल) विरेन्द्र सिंह, एएडी	(आईसी-75414एन) हितेश यादव, इंफैन्ट्री
(आईसी-75381एन) अभिजीत सिंह तोमर, इन्ट	(आईसी-75415डब्ल्यू) सरताज पाल सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-75382डब्ल्यू) नीरज कुमार गौड, एसी	(आईसी-75416वाई) धीरज जोधा, इंफैन्ट्री
(आईसी-75383वाई) अभय सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-75417एफ) सुमीत कुमार तिवारी, आर्टी
(आईसी-75384एफ) परवेज आलम, इंफैन्ट्री	(आईसी-75418के) अक्षांश शर्मा, आर्टी
(आईसी-75385के) सुधीर कुमार, एएससी	(आईसी-75419एम) रवीन्द्र कुमार वर्मा, एएससी
(आईसी-75386एम) जरमल सिंह, ईएमई	(आईसी-75420एफ) जयशंकर, इंफैन्ट्री
(आईसी-75387पी) ललित सिंह सौन, आर्टी	(आईसी-75421के) मुदापका दिनेश कुमार, इंफैन्ट्री
(आईसी-75388एक्स) प्रेरक जोशी, इंफैन्ट्री	(आईसी-75422एम) कर्मेन्द कृष्णा, आर्टी
(आईसी-75389ए) प्रशान्त चौधरी, एओसी	(आईसी-75423पी) नितेश कुमार, इंफैन्ट्री
(आईसी-75390पी) रूपेश कुमार उपाध्याय, आर्टी	(आईसी-75424एक्स) योगेश, एओसी
(आईसी-75391एक्स) सिमरप्रीत सिंह, एसी	(आईसी-75425ए) चन्द्र शेखर वशिष्ठ, आर्टी
(आईसी-75392ए) मनीष पोनिया, इंजीनियर्स	(आईसी-75426एच) मनीष कुमार, इंफैन्ट्री
(आईसी-75393एच) निखोत्सो सेकु अगामी, इंफैन्ट्री	(आईसी-75427एल) सूरज प्रताप सिंह, एएससी
(आईसी-75395एन) जैनेन्द्र कुमार, आर्टी	(आईसी-75428एन) अंशुल खडयाल, आर्टी
(आईसी-75396डब्ल्यू) अमित कुमार, इंफैन्ट्री	(आईसी-75429डब्ल्यू) अंकुर कुमार बसोत्रा, एविएशन
(आईसी-75397वाई) मरूणाल केवल डोंगरे, सिग्नल्स	(आईसी-75430एल) साइकेत भट्ट्याचार्य, इंफैन्ट्री
(आईसी-75398एफ) सुमित दत्तात्रय मार्तंडे, इंफैन्ट्री	(आईसी-75431एन) मुदित गुलाटी, एसी
(आईसी-75399के) अंकित कुमार पुनिया, आर्टी	(आईसी-75432डब्ल्यू) दीपक कुमार मिश्रा, एएडी
(आईसी-75400एन) जोगिन्दर सिंह, आर्टी	(आईसी-75433वाई) उदित राणा, इंफैन्ट्री
(आईसी-75401डब्ल्यू) संतोष कुमार सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-75434एफ) नितिश शर्मा, एओसी
(आईसी-75402वाई) राकेश कुमार सिंह, एएससी	(आईसी-75435के) समीर कुमार, आर्टी
(आईसी-75403एफ) नितिन मिस्त्री, आर्टी	(आईसी-75436एम) भट्ट कश्यप हेमंत, सिग्नल्स
(आईसी-75404के) प्रमोद कुमार, एओसी	(आईसी-75437पी) प्रबल सिंह, एएससी
(आईसी-75405एम) बालाजी एस, आर्टी	(आईसी-75438एक्स) प्रतीक सक्सेना, इंफैन्ट्री
(आईसी-75406पी) विनोद कुमार पाणी, मैक इंफैन्ट्री	(आईसी-75439ए) सुभाष बिशनोई, आर्टी
(आईसी-75407एक्स) ईशान पाल, इंजीनियर्स	(आईसी-75440पी) जॉर्ज थलियथ, इंफैन्ट्री

(आईसी-75441एक्स) हितेश मलिक, ईएमई	(आईसी-75474एच) गौरव बल्हारा, इंजीनियर्स
(आईसी-75442ए) शैलेन्द्र श्योराण, आर्टी	(आईसी-75475एल) रवीन्द्र कुमार जाखड, आर्टी
(आईसी-75443एच) अभिषेक राजवंशी, आर्टी	(आईसी-75476एन) एस गोपीनाथ यादव, एएडी
(आईसी-75444एल) हिमांशु तिवारी, आर्टी	(आईसी-75477डब्ल्यू) कुँवर प्रशान्त सिंह, इंफैन्ट्री
(आईसी-75445एन) ऐलेक्स ललमुआनपुया, इन्ट	(आईसी-75478वाई) अमोल प्रीत सिंह बाला, एविऐशन
(आईसी-75446डब्ल्यू) अंकुश कुमार, आर्टी	(आईसी-75479एफ) मोहित मलिक, आर्टी
(आईसी-75447वाई) राजीव छेत्री, आर्टी	(आईसी-75480डब्ल्यू) न्यामनेइ फोम, इंफैन्ट्री
(आईसी-75448एफ) बीरंजय कुमार, इंफैन्ट्री	(आईसी-75481वाई) प्रदीप कुमार भुयों, आर्टी
(आईसी-75449के) प्रशान्त सोनी, एएडी	(आईसी-75482एफ) अर्जुन राठी, ईएमई
(आईसी-75450वाई) श्यामल खरे, एएडी	(आईसी-75483के) जोरावर सिंह, आर्टी
(आईसी-75451एफ) रोहित मंडोत्रा, एसी	(आईसी-75484एम) अंकुर तिवारी, एसी
(आईसी-75452के) अंकित सिंह, आर्टी	(आईसी-75485पी) पुनीत शरन, आर्टी
(आईसी-75453एम) कुणाल महाजन, आर्टी	(आईसी-75486एक्स) गौरव कुमार, आर्टी
(आईसी-75454पी) आदित्य कुमार, इंफैन्ट्री	(आईसी-75487ए) मोहित खत्री, आर्टी
(आईसी-75455एक्स) सुब्रत कुमार मिश्रा, आर्टी	(आईसी-75488एच) पप्पू कुमार यादव, आर्टी
(आईसी-75456ए) साहिल शर्मा, इंजीनियर्स	(आईसी-75489एल) वैभव वर्मा, एओसी
(आईसी-75457एच) राम चन्द्र थापा, इंफैन्ट्री	(आईसी-75490ए) परमिन्दर सिंह, इंफैन्ट्री
(आईसी-75458एल) राकेश कुमार, एसी	(आईसी-75491एच) राहुल बालामोहन, इंफैन्ट्री
(आईसी-75459एन) पंकज भट्टाचार्य, इंफैन्ट्री	(आईसी-75492एल) अभिषेक सिंह नाबियाल, इंफैन्ट्री
(आईसी-75460एच) संग्राम सिंह, एएडी	(आईसी-75493एन) विक्रान्त वर्मा, एओसी
(आईसी-75461एल) साकेत कुमार, इंफैन्ट्री	(आईसी-75494डब्ल्यू) सत्यम कुमार दुबे, आर्टी
(आईसी-75462एन) पवनप्रीत सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-75495वाई) कोशिक जी, सिग्नल्स
(आईसी-75463डब्ल्यू) स्वागत दास, इंफैन्ट्री	(आईसी-75496एफ) रुद्धाशीश मजूमदार, एओसी
(आईसी-75464वाई) निलंजन बटव्याल, इंफैन्ट्री	(आईसी-75497के) मोहम्मद अशरफ मीर, एओसी
(आईसी-75465एफ) अभिषेक कुमार, एओसी	(आईसी-75498एम) एम अरुणकुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75466के) विजय राय, आर्टी	(आईसी-75499पी) राधेश्याम, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75467एन) आशुतोष पाराशर, एओसी	(आईसी-75500वाई) सुनील कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-75468पी) आशीश कुमार, इंजीनियर्स	(आईसी-75501एफ) गौरव शरद जाधव, आर्टी
(आईसी-75469एक्स) एम हेमजीत मोईरांग, आर्टी	(आईसी-75502के) अश्विनी कुमार सिंह, आर्टी
(आईसी-75470एम) हैप्पी चारक, इंफैन्ट्री	(आईसी-75503एम) संदीप सिंह भमरा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75471पी) धीरज, इंफैन्ट्री	(आईसी-75504पी) अर्पित राणा, एएससी
(आईसी-75472एक्स) विशाल कुमार चौधरी, इंफैन्ट्री	(आईसी-75505एक्स) राणा वासिम अहमद शराफत अली, आर्टी
(आईसी-75473ए) कुमार संजीत, आर्टी	(आईसी-75506ए) अमन शर्मा, एसी

(आईसी-75507एच) विवेक सांगवान, इन्ट	(आईसी-75540ए) मोहित डिमरी, सिग्नल्स
(आईसी-75508एल) गौरव रावत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75541एच) सुनील कुमार, आर्टी
(आईसी-75509एन) सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75542एल) सुनीत मिश्रा, आर्टी
(आईसी-75510एच) तारीफ सिंह, ईएमई	(आईसी-75543एन) विजय कुमार, आर्टी
(आईसी-75511एल) प्रशांत श्रीवास्तव, आर्टी	(आईसी-75544डब्ल्यू) मयंक कुमार सिंह, एसी
(आईसी-75512एन) अजय प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75545वाई) प्रेम सिंह, आर्टी
(आईसी-75513डब्ल्यू) क्रिपेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75546एफ) बिरेन्द्र कुमार, आर्टी
(आईसी-75514वाई) विवेक गंगल, आर्टी	(आईसी-75547के) सौरव शर्मा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75515एफ) अंकित श्योकन्द, एएससी	(आईसी-75548एम) त्रिशय सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75516के) नवीन जाजुन्दा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75549पी) रेडकर प्रणव मंगेश, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75517एम) प्रमोद कुमार कासाना, एएससी	(आईसी-75550के) अभय पुण्डीर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75518पी) दुर्गेश्वर प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75551एम) नवनीत ठाकुर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75519एक्स) पवित्रो कुमार मजूमदार, आर्टी	(आईसी-75552पी) लाईशराम मनोरंजन सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75520एम) रिकु पाण्डा, आर्टी	(आईसी-75553एक्स) कुमार अभिषेक, एविएशन
(आईसी-75521पी) दीपक कुमार, आर्टी	(आईसी-75554ए) पारितोष रावत, आर्टी
(आईसी-75522एक्स) अभिषेक आर चंदावर्कर, एएडी	(आईसी-75555एच) गुरदिल सिंह जौहल, आर्टी
(आईसी-75523ए) अखिल, एविएशन	(आईसी-75556एल) विनेन्द्र यादव, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75524एच) विकास श्योराण, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75557एन) स्वदेश कुमार दुबे, एसी
(आईसी-75525एल) यशवंत सिंह, आर्टी	(आईसी-75558डब्ल्यू) रितेश सांगवान, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75526एन) प्रियंकर दत्ता, आर्टी	(आईसी-75559वाई) देवेश बणिक, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75527डब्ल्यू) अंशुल चौधरी, एसी	(आईसी-75560एन) हर्षदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75528वाई) अंतरिक्ष गौड, एएडी	(आईसी-75561डब्ल्यू) आशुतोष तिवारी, एएससी
(आईसी-75529एफ) सुधीर कुमार तोमर, एएससी	(आईसी-75562वाई) ब्रजेश बैनीवाल, आर्टी
(आईसी-75530डब्ल्यू) राहुल मल्होत्रा, एसी	(आईसी-75563एफ) अमित गुंजन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75531वाई) विनय राज सिंह चौहान, आर्टी	(आईसी-75564के) उपल सेनगुप्ता, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75532एफ) संग्राम सिंह चिब, ईएमई	(आईसी-75565एम) रामनाथ जे आर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75533के) गजेन्द्र सांगवान, आर्टी	(आईसी-75566पी) अभिषेक दिवान, आर्टी
(आईसी-75534एम) अंकुर सिंह राणा, इंजीनियर्स	(आईसी-75567एक्स) धर्मवीर सिंह, ईएमई
(आईसी-75535पी) दिव्यशंख शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	(आईसी-75568ए) राजपाल सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75536एक्स) दाभाडे तुषार मरुणालकांत, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75569एच) तनमय विश्वास, सिग्नल्स
(आईसी-75537ए) मिर्दूल कांत चौधरी, आर्टी	(आईसी-75570एक्स) अभिषेक विश्वनाथन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75538एच) जौन केनेडी निगोथोजम, इन्फैन्ट्री	(आईसी-75571ए) सुशील जाखड, इन्फैन्ट्री
(आईसी-75539एल) राजन कुमार, इन्ट	(आईसी-75572एच) अमर सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75573एल) चन्द्राकर कुमार चौहान, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75574एन) पारोलकर दर्शन प्रकाश, आर्टी

(आईसी-75575डब्ल्यू) अनूप कृष्ण, आर्टी

(आईसी-75576वाई) समीर कान्त द्विवेदी, एएडी

(आईसी-75577एफ) अरुण कुमार आर, आर्टी

(आईसी-75578के) हिमांश चौधरी, आर्टी

(आईसी-75579एम) व्योम कुमार, एसी

(आईसी-75580एफ) गौरव आनन्द बौडई, इंजीनियर्स

(आईसी-75581के) सुनित कुमार सिंह, एओसी

(आईसी-75582एम) करण थामस जोसफ, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75583पी) रंजीत कुमार, एएससी

(आईसी-75584एक्स) विनय कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75585ए) अखिलनाथ सी एच, आर्टी

(आईसी-75586एच) रोहित कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75587एल) अमित चौधरी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75588एन) ललित कुमार प्रधान, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75589डब्ल्यू) तुषार सिन्हा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75590एल) अमित शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-75591एन) भवानी सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75592डब्ल्यू) आंब्रे वैभव सुनिलकुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75593वाई) राणे सिद्धेश अरुण, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75594एफ) अभ्युदय सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री

(आईसी-75595के) अबीर कुमार घोष, एओसी

(आईसी-75596एम) पीयूष ग्रोवर, इन्फैन्ट्री

राहुल सांगवान
लेफ्टि कर्नल
एएमएस-8बी

सेना शाखा

सं. 104, दिनांक 01 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

विंग कमांडर के पद पर

अनिल कुमार (एमआर-082881डब्ल्यू) (एएफ-26069बी),
एएमसी, 22 जुलाई 2011

सर्जन लेफ्टि से सर्जन कमांडर के पद पर

प्रोमिला रानी (एमएस-14780एफ) (एमआर-08728एच)
(75837एफ), एएमसी, 17 अगस्त 2011

कैप्टन से मेजर

भास्कर गयान (एमआर-09113के), एएमसी, 20 फरवरी 2011

राजेश आर नायर (एमआर-09139वाई), एएमसी, 20 मार्च 2011

शरद कुमार गोयल (एमएस-15704एफ) (एमआर-09233एच),
एएमसी, 25 अप्रैल 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2011 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

माइकेल जोन के (एमआर-08372ए), एएमसी, 20 फरवरी 2011

धर्मेन्द्र कुमार (एमआर-08978के), एएमसी, 20 फरवरी 2011

परविन्दर सिंह (एमआर-09114एम), एएमसी, 20 फरवरी 2011

फ्लाइट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

धीरज यादव (एमआर-09133एक्स) (एमएफ-28874जी), एएमसी,
01 सितम्बर 2011

कप्तान के पद पर

सोमाली पटनायक (एमएस-15505एन) (एमआर-09234एल),
एएमसी, 06 फरवरी 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 अगस्त 2008 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

मनीषा जिन्दल (एमआर-08848एफ), एएमसी, 11 फरवरी 2010

सलिल कुमार गुप्ता (एमआर-08884एम), एएमसी, 11 फरवरी 2010

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 105, दिनांक 01 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सूबेदार (एमटी)

नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-665195एफ), 16 सितम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 सितम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अजाब सिंह (जेसी-665907वाई), 01 अक्टूबर 2011 *
 नायब सूबेदार सुनील चंद (जेसी-665275वाई), 01 अक्टूबर 2011 *
 नायब सूबेदार बलवंत सिंह सैनी (जेसी-665274डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गुंजेश्वर चौहान (जेसी-665201के), 12 अक्टूबर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 03 अक्टूबर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जीवधन यादवा (जेसी-665207एल), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार परमिल प्रसाद सिंह (जेसी-665205ए), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-665210एल), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार सुरेश प्रसाद पंडित (जेसी-665214एफ), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जेसी-665277के) 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार राज बहादुर शर्मा (जेसी-665204एक्स), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार शोराज सिंह मीणा (जेसी-665212डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-665276एफ), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-665213वाई), 01 नवम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार नंदा कुमार टी जी (जेसी-665278एम), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार संतोष पटनायक (जेसी-665203पी), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार कपिलेश्वर राम (जेसी-665209डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार मुलायम सिंह (जेसी-665206एच), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार दुर्गा दत्त (जेसी-665208एन), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-665202एम), 01 नवम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गुप्तेश्वर प्रसाद (जेसी-665198पी), 01 सितम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महिंद्र प्रसाद (जेसी-664975ए), 01 नवम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 28 जून 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शाजीमोन के (जेसी-665219ए), 01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार सुनील कुमार सिंह (जेसी-665215के), 01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार वरधीस टी पी (जेसी-665280के), 01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार मंजीत सिंह यादव (जेसी-665282पी), 01 दिसम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-665272एल), 01 दिसम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार रवि कुमार बी एम (सं. 13896892एम अब जेसी-667873पी), 01 सितम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जाएगी)

हवलदार उमा शंकर राय (सं. 13898807एक्स अब जेसी-667884एफ), 01 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जाएगी)

हवलदार सुखविंद्र कुमार (सं. 13898809एच अब जेसी-667891एक्स), 29 नवम्बर 2011 *

हवलदार ब्रज दुलाल मांझी (सं. 13896903एन अब जेसी-667892ए), 28 नवम्बर 2011 *

हवलदार अब्दुल कादिर अंसारी (सं. 13898822एम अब जेसी-667894एल), 30 नवम्बर 2011 *

हवलदार अखिलेश कुमार (सं. 13899119एल अब जेसी-667895एन), 30 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाएगी)

हवलदार कुंजुमोन के सी (सं. 13898928वाई अब जेसी-667896डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार लिम्बु राम मुशाहारी (सं. 13898937ए अब जेसी-667897वाई), 01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार गंगाराम बर्मन (सं. 13896955के अब जेसी-667900एन), 01 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाएगी)

हवलदार सुखपाल सिंह (सं. 14800181एन अब जेसी-667898एफ), 03 दिसम्बर 2011 *

हवलदार शेर पाल सिंह (सं. 13896927एक्स अब जेसी-667899के), 02 दिसम्बर 2011 *

हवलदार शैलेंद्र बहादुर सिंह (सं. 13896969के अब जेसी-667901डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाएगी)

सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार सोनूने सोपान अश्रुजी (जेसी-663550पी), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार रफी मौहम्मद (जेसी-663554एल), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार के दुर्योधन (जेसी-663800एल), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश यादव (जेसी-663421पी), 04 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार बाबु लाल (जेसी-663524एन), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार सैख कासिम वल्ली साहिब (जेसी-663549ए), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार मुकुट बिहारी शर्मा (जेसी-663801एन), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार अजिथ कुमार आर (जेसी-663522एच), 15 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार सत्येन्द्र सिंघा (जेसी-663552ए), 01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-663553एच), 25 नवम्बर 2011 *

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कुमरे शाम राव जानबाजी (जेसी-663802डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार राजा शेखरन पिल्लै (जेसी-663900डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-663646एक्स), 01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार प्रह्लादन पी सी (जेसी-663797डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार परिमल कुमार मण्डल (जेसी-663647ए), 01 दिसम्बर 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एस के टी)

हवलदार सुरेश कुमार (जेसी-6383610एम अब जेसी-667883वाई), 08 नवम्बर 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2011 से दी जाएगी)

रवीन्द्र कुमार अरोड़ा
अवर सचिव

थलसेना

विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कर्मिक

सं. 106, दिनांक 2 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

सुधांसु एस चौधरी (सं. 14614318डब्ल्यू अब जेसी-766479एम), 05 दिसम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

जितेन्द्रिय साहू (सं. 14614569ए अब जेसी-766662पी), 12 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

अनील कुमार (सं. 14614366डब्ल्यू अब जेसी-766471ए), 12 दिसम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

मालवेकर डी डी (सं. 14614579के अब जेसी-766665एच), 08 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

सय्येद अब्दुल हीराभाई (सं. 14614572ए अब जेसी-766663एक्स), 12 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

महेन्द्र सिंह (सं. 14614034एम अब जेसी-765927एफ), 01 मार्च 2011

गोबिंदा चक्रवर्ती (सं. 14614461एच अब जेसी-766468ए), 11 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

अशोक कुमार मिश्रा (सं. 14605812एल अब जेसी-766621एल), 16 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

आर प्रभु (सं. 14599807एफ अब जेसी-766732एच), 19 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

दाना राम (सं. 14604487के अब जेसी-766619एन), 25 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

अजित दास (सं. 14602145एक्स अब जेसी-766656एफ), 01 दिसम्बर 2011

हयात सिंह (सं. 14606030एफ अब जेसी-766626के), 01 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

राम बिलास सिंह (सं. 14592280पी अब जेसी-766679एच), 14 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

दरोगा सिंह (सं. 14592282ए अब जेसी-766580एक्स), 13 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

मनोज कुमार (सं. 14591973ए अब जेसी-766591वाई), 02 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

गाज भारे विलास शंकर (सं. 14598273पी अब जेसी-766598एच), 01 दिसम्बर 2011/15 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन इलैक्ट के रैंक में

सतीश ए (सं. 14628067एच अब जेसी-766505एच), 16 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए ई) के रैंक में

राजेश कुमार शुक्ला (सं. 14634628एच अब जेसी-766585डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

मनोज कुमार सिंह (सं. 14635104एन अब जेसी-766688के), 22 दिसम्बर 2011/22 अक्टूबर 2011 *

कमलेश कुमार यादव (सं. 14634631एच अब जेसी-766686वाई), 15 दिसम्बर 2011/22 अक्टूबर 2011 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलर्जी के रैंक में

अखिलेश कुमार (सं. 14617032एम अब जेसी-766335के), 01 दिसम्बर 2011

सतीश कुमार शर्मा (सं. 14617180एक्स अब जेसी-766336एम), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

डोली नरेश (सं. 14616091एम अब जेसी-766582एक्स), 25 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

डोडिया कमलेश कुमार कांती लाल (सं. 14616520एच अब जेसी-766585एल), 01 दिसम्बर 2011

मानवंडी गुनाशेखरन ए (सं. 14616793एल अब जेसी-766586एन), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक इंजीनियर इक्वूपमेंट के रैंक में

एल बीरेन्द्र कुमार सिंघा (सं. 14590868एक्स अब जेसी-766595पी), 01 नवम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

रमेश कुमार (सं. 14589246के अब जेसी-766631पी), 01 दिसम्बर 2011

रंजीत कुमार उपाध्या (सं. 14588835एन अब जेसी-766633ए), 01 दिसम्बर 2011

सरत चन्द्र बराल (सं. 14589284ए अब जेसी-766634एच), 01 दिसम्बर 2011

अशोक कुमार त्रिपाठी (सं. 14590299पी अब जेसी-766637डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011

राम लाल (सं. 14590693ए अब जेसी-766638वाई), 14 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

सुरेश पाल सिंह (सं. 14590617एन अब जेसी-766640डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011

रमेश कुमार सिंह (सं. 14589492पी अब जेसी-766641वाई), 01 दिसम्बर 2011

संत कुमार सिंह (सं. 14589495एच अब जेसी-766642एफ), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार से नायब सूबेदार आर्मेन्ट टेक (ए एफ वी/ए डी) के रैंक में

राम अज्ञान यादव (सं. 14590078एच अब जेसी-766650ए), 01 दिसम्बर 2011

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

असमल खान (सं. 14619927के अब जेसी-765657एक्स), 16 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2010 *

ब्रज गोपाल विशाल (सं. 14624102एच अब जेसी-766538एन), 31 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हंस राज (सं. 14624217डब्ल्यू अब जेसी-766548एक्स), 07 नवम्बर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

सलवे अनील अम्बादास (सं. 14624760पी अब जेसी-766577एम), 02 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

राज कुमार (सं. 14628871के अब जेसी-766030के), 14 नवम्बर 2011/01 अप्रैल 2011 *

बीजूमोन एल (सं. 14628482के अब जेसी-766557वाई), 23 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

सुभाष चौहान (सं. 14628676एम अब जेसी-766560वाई), 08 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

राकेश कुमार रंजन (सं. 14631231एल अब जेसी-766643के), 12 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए ई) के रैंक में
जेरी बाय पी (सं. 14626874वाई अब जेसी-766495के), 22 नवम्बर
2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एफ (ए एफ) के रैंक में
उदय (सं. 14635619एन अब जेसी-766501एम), 22 नवम्बर 2011/
22 मई 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन इलैक्ट के रैंक में
सुदरसन महाराणा (सं. 14628241के अब जेसी-766506एल), 01 नवम्बर
2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में
सरजन कुमार (सं. 14613314एन अब जेसी-766513एफ), 14
नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में
श्रीप्पय्या एम एन (सं. 14618334एल अब जेसी-766528के),
07 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

करुणकार बिस्वाल (सं. 14618801एक्स अब जेसी-766533पी), 16 नवम्बर
2011/01 अक्टूबर 2011 *

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

सेना शाखा

(नियमित सेना)

सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

सं. 107, दिनांक 2 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

पक्के रिसालदार मेजर के रैंक में (ए एस एच)

रिसालदार नन्द लाल जैस्वाल (जेसी-680682वाई), 01 अक्टूबर 2011

रिसालदार करन सिंह (जेसी-680738ए), 01 मई 2011

रिसालदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-680790एच), 01 मई 2011

रिसालदार तगा राम (जेसी-680791एल), 03 सितम्बर 2011/01 सितम्बर
2011 *

रिसालदार लाडु राम (जेसी-680807एल), 01 अक्टूबर 2011

रिसालदार प्रताप सिंह (जेसी-680808एन), 03 अक्टूबर 2011/
01 अक्टूबर 2011 *

पक्के रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

नायब रिसालदार तरुण राय (जेसी-680916एक्स), 18 नवम्बर 2010/
22 जून 2010 *

नायब रिसालदार दिवाकर लाल (जेसी-681010वाई), 22 अक्टूबर
2010/01 अक्टूबर 2010 *

नायब रिसालदार झालरु राम (जेसी-681011एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब रिसालदार आर बी भगत (जेसी-681012के), 01 अक्टूबर
2010

नायब रिसालदार रणबीर सिंह (जेसी-681014पी), 12 अक्टूबर 2010/
01 अक्टूबर 2010 *

नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-681015एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब रिसालदार साबेग सिंह औलख (जेसी-681016ए), 01 नवम्बर
2010

नायब रिसालदार संजीव सिंह शुक्ला (जेसी-681017एच), 01 दिसम्बर
2010

नायब रिसालदार श्याम सुन्दर पौल (जेसी-681021एल), 01 दिसम्बर
2010

नायब रिसालदार मान सिंह (जेसी-681022एन), 01 अप्रैल 2011

नायब रिसालदार महादेव (जेसी-681024वाई), 01 मई 2011

नायब रिसालदार विजयन टी के (जेसी-681025एफ), 01 मई 2011

नायब रिसालदार बलजीत सिंह (जेसी-680994पी), 23 सितम्बर
2011/28 जून 2011 *

नायब रिसालदार बिजय कुमार यादव (जेसी-681023डब्ल्यू), 16 सितम्बर
2011/28 जून 2011 *

नायब रिसालदार अवधेश कुमार (जेसी-681027एम), 02 अगस्त
2011/01 अगस्त 2011 *

नायब रिसालदार बी के सिंह (जेसी-681028पी), 22 अगस्त 2011/
01 अगस्त 2011 *

नायब रिसालदार आर बी पी सिंह (जेसी-681029एक्स), 01 अगस्त
2011

नायब रिसालदार आर गणेशन (जेसी-681030एम), 01 अक्टूबर
2011

नायब रिसालदार मारकण्डे ठाकुर (जेसी-681031पी), 01 अक्टूबर
2011

नायब रिसालदार गुरमेज सिंह (जेसी-681033ए), 01 अक्टूबर 2011

नायब रिसालदार जाय कृष्ण लाल दास (जेसी-681034एल),
02 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

नायब रिसालदार अनिल कुमार राम (जेसी-681036एन), 01 अक्टूबर
2011

नायब रिसालदार राम केशवर सिंह (जेसी-681037डब्ल्यू), 01 नवम्बर
2011

नायब रिसालदार प्रदीप कुमार रावत (जेसी-681039एफ), 01 नवम्बर 2011

नायब रिसालदार राम चन्द्र यादव (जेसी-681040डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2011

*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाती है

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

हवलदार मंगल सिंह (सं. 638107एच अब जेसी-681218एफ), 01 जुलाई 2010

हवलदार एस एस धोबी (सं. 6381190वाई अब जेसी-681219के), 01 जुलाई 2010

दफादार डी वी सिताराम (सं. 6482640एम अब जेसी-681220वाई), 17 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

दफादार लाल बहादूर (सं. 6482283पी अब जेसी-681221एफ), 04 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

दफादार बिरेन्द्र कुमार (सं. 6482266पी अब जेसी-681222के), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

दफादार निर्दोश कुमार (सं. 6381294ए अब जेसी-681223एम), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

दफादार कथिरवन जी (सं. 6381729एक्स अब जेसी-681224पी), 01 अगस्त 2010

दफादार बी एस मवरि (सं. 6482285ए अब जेसी-681225एक्स), 01 सितम्बर 2010

दफादार साजु पी डी (सं. 6482291एन अब जेसी-681226ए), 01 सितम्बर 2010

दफादार आर एस उपाध्याय (सं. 6382792वाई अब जेसी-681227एच), 01 सितम्बर 2010

दफादार राम देव सिंह (सं. 6482315एम अब जेसी-681228एल), 01 सितम्बर 2010

दफादार नरेश सिंह (सं. 6382115एफ अब जेसी-681229एन), 01 सितम्बर 2010

दफादार पारस नाथ पान्डे (सं. 6482127एल अब जेसी-681230एच), 18 अक्टूबर 2010/25 सितम्बर 2010*

दफादार रोहितास कुमार (सं. 6482345के अब जेसी-681231एल), 08 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

दफादार रवि चन्द्रन के आर (सं. 6482346एम अब जेसी-681232एन), 08 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

दफादार टी जी दिनकर (सं. 6476647ए अब जेसी-681233डब्ल्यू), 13 दिसम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

दफादार विजय राय (सं. 6482385डब्ल्यू अब जेसी-681234डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

दफादार टी जेम्स राज (सं. 6482105एम अब जेसी-681235एफ), 09 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

दफादार भरत सिंह (सं. 6476833डब्ल्यू अब जेसी-681236के), 29 नवम्बर 2010/09 नवम्बर 2010*

दफादार रामजी दुबे (सं. 6482349ए अब जेसी-681237एम), 26 नवम्बर 2010/09 नवम्बर 2010*

दफादार पिताम्बर मोहन्ता (सं. 6482948ए अब जेसी-681238पी), 15 दिसम्बर 2010/09 नवम्बर 2010*

दफादार देव राज (सं. 6382586पी अब जेसी-681239एक्स), 26 नवम्बर 2010/09 नवम्बर 2010*

दफादार दुर्गेश सिंह (सं. 6482361एफ अब जेसी-681240एम), 14 दिसम्बर 2010/09 नवम्बर 2010*

दफादार जगदीश चंद्र (सं. 6482368एल अब जेसी-681241पी), 18 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

दफादार दलिप सिंह (सं. 6482370एच अब जेसी-681242एक्स), 04 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

दफादार एम सी जोशी (सं. 6482323एल अब जेसी-681243ए), 15 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010*

दफादार वी डी सिंह (सं. 6483013एम अब जेसी-681244एच), 23 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

दफादार बी के पाणीग्राहि (सं. 6382815पी अब जेसी-681245एल), 03 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

दफादार के नागराज (सं. 6482387डब्ल्यू अब जेसी-681246एन), 01 दिसम्बर 2010

दफादार रामानुज (सं. 6383048एन अब जेसी-681247डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010*

दफादार सुरजीत कुमार (सं. 6482439एफ अब जेसी-681248वाई), 01 जनवरी 2011

दफादार टी एन महेश (सं. 6482450ए अब जेसी-681249एफ), 01 फरवरी 2011

दफादार बी सी राजन (सं. 6482458एम अब जेसी-681250डब्ल्यू), 02 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011*

दफादार शिव कुमार सा (सं. 6482461एच अब जेसी-681251वाई), 01 फरवरी 2011

दफादार जी पी वी राव (सं. 6482465एच अब जेसी-681252एफ), 01 फरवरी 2011

दफादार के एस चौधरी (सं. 6482479एच अब जेसी-681253के), 01 अप्रैल 2011

दफादार मोहन सिंह (सं. 6482481ए अब जेसी-681254एम), 01 अप्रैल 2011

दफादार विश्वनाथ सिंह (सं. 6482483एल अब जेसी-681255पी),
01 मई 2011

दफादार के बी शाहि (सं. 6482100एन अब जेसी-681256एक्स),
02 मई 2011/01 मई 2011*

दफादार बालु पाटिल (सं. 6482485डब्ल्यू अब जेसी-681257ए),
05 मई 2011/01 मई 2011*

दफादार जसबिर (सं. 6482489एम अब जेसी-681258एच), 01 मई
2011

दफादार बिखन सिंह (सं. 6383194एन अब जेसी-681259एल),
01 मई 2011

*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाती है

रवीन्द्र कुमार अरोड़ा
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 108, दिनांक 3 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारी की दिनांक 27.12.2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन
सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना
अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी
कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

अभिषेक मिश्रा (एमएस-15712ए)(एमआर-09232ए), एएमसी,
25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है
रद्द किया जाता है)

कौशिक एम आर (एमएस-15715एन)(एमआर-09231एक्स),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 16 मई 2009 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है
रद्द किया जाता है)

शरद कुमार गोयल (एमएस-15704एफ)(एमआर-09233एच),
एएमसी, 25 अप्रैल 2008

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 25 अप्रैल 2005 से हो जाएगी
[इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडीसन (पैथोलॉजी) के
लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति
के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी]

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 अगस्त 2009 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है रद्द किया जाता है)

माईबाम चन्द्रामनी सिंह (एमएस-15630एक्स)(एमआर-09235एन),
एएमसी, 06 सितम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है रद्द किया जाता है)

बिपिन बिनोद (एमएस-15889एन)(एमआर-09236डब्ल्यू),
एएमसी, 12 अगस्त 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है रद्द किया जाता है)

लेफ्टिनेंट के पद पर

सोमाली पटनायक (एमएस-15505एन)(एमआर-09234एल),
एएमसी, 26 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

स्थल सेना शाखा

सं. 109, दिनांक 3 फरवरी 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों
को दिनांक 30 सितम्बर, 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त
करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी सं., पद एवं नाम और आर्म्

आईसी-30750 कर्नल (टीएस) प्रभात कुमार, आर्टी

आईसी-31358 कर्नल (टीएस) अरूण कुमार कपिला, आईएनएफ

आईसी-31400 कर्नल (टीएस) प्रविन्द्राजीत सिंह अटवाल, एसी

आईसी-31777 कर्नल (टीएस) वरूणवा सरकर, आईएनएफ

आईसी-31825 कर्नल राजवीर सिंह रघु, आर्टी

आईसी-31846 ले कर्नल धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आर्टी

आईसी-34032 ले कर्नल ज्ञान सिंह काडियान, आईएनएफ

आईसी-34116 कर्नल (टीएस) सर्वजीत सिंह मल्हारी, आईएनएफ
 आईसी-34156 कर्नल भरत चंद्र मोहन्ता, आर्टी
 आईसी-34172 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह नरबन, आर्टी
 आईसी-34174 कर्नल (टीएस) अपूर्वा सिकंदर, आर्टी
 आईसी-34545 कर्नल (टीएस) प्रदीप कुमार जैन, एएडी
 आईसी-34878 कर्नल (टीएस) रमीन्दर पाल सिंह, आर्टी
 आईसी-34908 कर्नल (टीएस) दिलावर जंग बहादुर, आईएनएफ
 आईसी-34982 कर्नल भरत भूषण खुराना, आईएनएफ
 आईसी-35669 कर्नल मेडप्पा कोदण्डा पोन्नप्पा, आईएनएफ
 आईसी-35713 कर्नल (टीएस) पॉल जॉर्ज, आईएनएफ
 आईसी-35714 कर्नल (टीएस) गुरदीप सिंह, आईएनएफ
 आईसी-35803 कर्नल (टीएस) विश्वनाथ सुदर्शन शर्मा, इन्जीनियर्स
 आईसी-36663 कर्नल (टीएस) अजय सिंह काटोच, आईएनएफ
 आईसी-36910 कर्नल स्वर्णजीत सिंह नरूला, आर्टी
 आईसी-37050 कर्नल गिरीशी कुमार मेंदीरत्ता, आर्टी
 आईसी-37056 कर्नल बलराज सिंह ग्रेवाल, एओसी
 आईसी-37098 कर्नल (टीएस) हरि देव वैद, आर्टी
 आईसी-37119 कर्नल (टीएस) श्री प्रकाश शर्मा, आर्टी
 आईसी-37123 कर्नल रण सिंह काडियान, आईएनएफ
 आईसी-37255 कर्नल (टीएस) आशीष दास, आईएनएफ
 आईसी-37264 कर्नल (टीएस) पंकज कुमार उप्पल, एसी
 आईसी-37292 कर्नल (टीएस) धर्मेन्द्र सिंह, आर्टी
 आईसी-37351 कर्नल मनोज कुमार चौधरी, एओसी
 आईसी-37501 कर्नल (टीएस) शमशेर बहादुर सिंह, आर्टी
 आईसी-37521 कर्नल (टीएस) जोयदीप कोटवाल, आईएनएफ
 आईसी-37655 कर्नल गणपति सुब्रामनियम बी, एओसी
 आईसी-38105 कर्नल मधुसूदन कुकशाल, आईएनएफ
 आईसी-39040 कर्नल (टीएस) राजीन्द्र कुमार, इन्जीनियर्स
 आईसी-40276 कर्नल (टीएस) स्टेनीसलॉस पैट्रीक राजन, इन्जीनियर्स
 आईसी-40420 कर्नल (टीएस) प्रदोष कांति दास, एससी
 आईसी-40443 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह भंडारी, एससी
 आईसी-40452 कर्नल (टीएस) प्रेम जीत सिंह, आर्टी
 आईसी-40602 कर्नल (टीएस) राम राज वर्मा, आर्टी

आईसी-40611 कर्नल (टीएस) गिलरॉय जॉर्ज, आईएनएफ
 आईसी-40820 कर्नल (टीएस) जोन नानथीकाड साईरीक, आईएनएफ
 आईसी-40898 कर्नल (टीएस) हरि पी बी, आर्टी
 आईसी-41300 कर्नल (टीएस) सुरेश सिंह, आईएनएफ
 (एसएल-2934 कर्नल सत्य पाल सिंह, आर्टी
 (एसएल-3151 कर्नल प्रेम लाल शर्मा, आरओ
 (एसएल-3602 कर्नल चमकौर सिंह धलीवाल, सिग्नल्स
 (एसएल-3759) ले कर्नल गोविंद नारायण सामी, आरओ
 (एसएल-3819) ले कर्नल सोनारा वसंत, ईएमई
 (एसएल-3912) ले कर्नल पी जोसेफ मैथ्यू, क्यूएम
 (आरसी-1072) मेजर जोस बी कोलाचेरिल, ईएमई

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-31374 कर्नल (टीएस) विजय कुमार कोहली, आईएनएफ
 आईसी-31408 कर्नल राम चन्द्र सिंह, आर्टी
 आईसी-31422 कर्नल (टीएस) राकेश पाठक, आर्टी
 आईसी-31659 कर्नल ज्ञान प्रकाश, आर्टी
 आईसी-31676 कर्नल (टीएस) नब्येन्दु कांति भट्टाचार्या, आईएनएफ
 आईसी-31701 कर्नल अनील कुमार शर्मा, आईएनएफ
 आईसी-31749 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह यादव, एएडी
 आईसी-31888 कर्नल (टीएस) जॉन तिवारी, आईएनएफ
 आईसी-34023 कर्नल (टीएस) अनिल कुमार जुले, आईएनएफ
 आईसी-34079 कर्नल (टीएस) उदय भान सिंह राणावत, एसी
 आईसी-34232 कर्नल (टीएस) शिवाजी, आईएनटी
 आईसी-34526 कर्नल (टीएस) विशाल चन्द्र भाटिया, एसी
 आईसी-34533 कर्नल सुरेश कुमार डोगरा, आर्टी
 आईसी-34535 कर्नल जतीन्दर मोहन सिंह, आईएनएफ
 आईसी-34847 कर्नल देवेन्द्र नाथ माथुर, आईएनएफ
 आईसी-34962 कर्नल (टीएस) विजेन्द्र सिंह चौधरी, आईएनएफ
 आईसी-35008 कर्नल (टीएस) सुनील कुमार मेहरा, आईएनएफ

आईसी-35254 कर्नल सुनील सब्बरवाल, एसी
 आईसी-35321 कर्नल राजेश कुमार पाण्डेय, आईएनएफ
 आईसी-35342 कर्नल (टीएस) दलजीत सिंह संधू, आईएनएफ
 आईसी-35378 कर्नल (टीएस) सुधीर कुमार शर्मा, आईएनएफ
 आईसी-35709 कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र कुमार, आईएनएफ
 आईसी-35854 कर्नल तपन कुमार मानजी, ईएमई
 आईसी-35898 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र कुमार राव, इन्जीनियर्स
 आईसी-37044 कर्नल (टीएस) सुभाष धिलडियाल, आईएनएफ
 आईसी-37092 कर्नल विपिन वामनराव वैद्य, आईएनएफ
 आईसी-37229 कर्नल (टीएस) कुलवंत सिंह, एसी
 आईसी-37258 कर्नल बेनी चौगठ वर्गीज, इन्जीनियर्स
 आईसी-37268 कर्नल सुरजीत सिंह जोसन, आईएनएफ
 आईसी-37346 कर्नल (टीएस) अश्वनी कुमार सूद, आर्टी
 आईसी-37401 कर्नल (टीएस) जीतेन्द्र राव, एओसी
 आईसी-37494 कर्नल (टीएस) चरणजीत सिंह भोगल, आईएनएफ
 आईसी-37596 कर्नल (टीएस) मोती लाल, आईएनएफ
 आईसी-38630 कर्नल (टीएस) कुलदीप शर्मा, आईसी
 आईसी-40266 कर्नल (टीएस) देवेन्द्र नाथ चौधरी, इन्जीनियर्स
 आईसी-41152 कर्नल देव राज धीमन, आर्टी
 आईसी-41180 कर्नल (टीएस) ज्ञान चंद शर्मा, आईएनएफ
 आईसी-41440 कर्नल (टीएस) आर गणेशन, सिग्नल्स
 (एसएल-3538) ले कर्नल नगेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, ईई
 (एसएल-3567) ले कर्नल सत्य नारायण पाल, ईई
 (एसएल-3768) ले कर्नल चन्द्रन के बी, क्यूएम
 (एसएल-4013) ले कर्नल सोमनाथ बी ए, ईएमआई(एसए)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 नवम्बर, 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति को आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-30779 कर्नल रंजन शर्मा, आर्टी
 आईसी-31389 कर्नल (टीएस) शैलेन्द्र नारायण होट, आईएनएफ
 आईसी-31620 कर्नल (टीएस) प्रमोद कुमार, एससी (एफआईओ)
 आईसी-31639 कर्नल प्रीतोष देब, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-31646 कर्नल अशोक कुमार यादव, एएडी

आईसी-31807 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र गर्डीरोला, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34038 कर्नल ओम प्रकाश कसानिया, एसी
 आईसी-34129 कर्नल सतीश चन्द्र सिंह पठानिया, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34207 कर्नल राजीव भटनागर, एसी
 आईसी-34221 कर्नल (टीएस) धरमर्दजौ राजा, आर्टी
 आईसी-34250 कर्नल शशी शेखर अनंत कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34471 कर्नल (टीएस) वरीन्द्रजीत सिंह भोपाराय, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34754 कर्नल (टीएस) प्रवीण कुमार अहरसा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34836 कर्नल (टीएस) मनोज त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34952 कर्नल (टीएस) असमन्जा गेन, इन्फैन्ट्री
 आईसी-34967 कर्नल (टीएस) कृष्ण अनूप सिंह, इन्ट
 आईसी-34972 कर्नल लखपत सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
 आईसी-35148 कर्नल धीरन श्रीराम गवांडे, आर्टी
 आईसी-35219 कर्नल गोविंद भागवत, इन्फैन्ट्री
 आईसी-35314 कर्नल देवी प्रसाद श्रीनिवासा, इन्फैन्ट्री
 आईसी-35373 कर्नल हरिन्दर सिंह साही, इन्फैन्ट्री
 आईसी-35543 कर्नल तरूण कुमार मुखर्जी, आर्टी
 आईसी-35802 कर्नल (टीएस) चांद राम झाकर, आईसी
 आईसी-35809 कर्नल (टीएस) भन्नीद्रा कुमार, ईएमई
 आईसी-35839 कर्नल (टीएस) विनोद कुमार बातिश, सिग्नल्स
 आईसी-36761 कर्नल (टीएस) सन्तोष कुमार होषी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37140 कर्नल (टीएस) राधाकृष्णन् प्रेमचन्द्रन नैय्यर, आर्टी
 आईसी-37358 कर्नल (टीएस) राज कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-37367 कर्नल (टीएस) योगेश त्रागी, इन्फैन्ट्री
 आईसी-37384 कर्नल नवल कपूर, आर्टी
 आईसी-38452 कर्नल (टीएस) हरि कृष्ण खंडेलवाल, सिग्नल्स
 आईसी-39957 कर्नल (टीएस) वेनूगोपालन पी पी, एससी
 आईसी-40170 ले कर्नल एसवरा बाबू एम सी, आर्टी
 आईसी-40598 कर्नल (टीएस) कन्हैया लाल पाठक, इन्जीनियर्स
 आईसी-41281 कर्नल (टीएस) बच्चनी कन्हैयालाल लीलाराम, इन्जीनियर्स
 आईसी-41345 कर्नल (टीएस) काव्या कुमार पल्लीसरी, इन्फैन्ट्री
 एसएल-3282) ले कर्नल स्टीफन एस, ईएमई

एसएल-3474) ले कर्नल अवतार सिंह, इन्जीनियर्स
 एसएल-3550) ले कर्नल दिवान चंद, क्यूएम
 एसएल-3686) ले कर्नल हंस राज चंदेल, ईएमई
 एसएल-3965) ले कर्नल नरेन्द्र सिंह समबीअल, आरओ
 एसएल-3976) ले कर्नल हरि सिंह, आरओ
 आरसी-1053 मेजर नटवर जैना, सिग्नल्स
 आरसी-1076 मेजर अजीत सिंह शिवरैन, इन्फैन्ट्री
 आरसी-1102 मेजर मोहन ई पी, सिग्नल्स

स्थल सेना शाखा

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 दिसम्बर 2009 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-31405 कर्नल (टीएस) पल्लव कुमार मजुमदार, आईएनएफ
 आईसी-31706 कर्नल बिनु वालेथ जॉन, आईएनएफ
 आईसी-31741 कर्नल (टीएस) थिंगबैजम नंदा कुमार सिंह, आईएनएफ
 आईसी-31775 कर्नल (टीएस) अजय कुमार, आईएनएफ
 आईसी-31783 कर्नल (टीएस) सब्यसांची मोहंती, एसी
 आईसी-34065 कर्नल (टीएस) सयाजी रामराव निकम, मेक आईएनएफ
 आईसी-34085 कर्नल (टीएस) राजीव चौहान, आईएनएफ
 आईसी-34187 कर्नल रजनीकांत वर्मा, सिग्नल्स
 आईसी-34497 कर्नल (टीएस) शिविंदर वीर सिंह, एसी
 आईसी-34513 कर्नल (टीएस) राकेश कुमार शर्मा, आर्टी
 आईसी-34530 कर्नल (टीएस) अशोक कुमार पंत, आर्टी
 आईसी-34610 कर्नल राकेश चौधरी, आईएनएफ
 आईसी-34784 कर्नल (टीएस) छाप नारायण गुरूंग, आईएनएफ
 आईसी-34813 कर्नल (टीएस) संजय त्रिपाठी, आईएनएफ
 आईसी-34913 कर्नल रमण दत्त बाली, आईएनएफ
 आईसी-34959 कर्नल सुधीर आचार्या, आर्टी
 आईसी-34963 कर्नल विनोद कुमार सिंह, आईएनएफ
 आईसी-35002 कर्नल मुथुकृष्णन कुमार, मेक आईएनएफ
 आईसी-35695 कर्नल (टीएस) अरूण कोटनाला, आईएनएफ
 आईसी-35702 कर्नल (टीएस) कृष्णा मेनेन एम, आर्टी

आईसी-35704 कर्नल चरण कमल सिंह मन, आईएनएफ
 आईसी-35881 कर्नल (टीएस) सतीन्द्र गर्ग, इंजीनियर्स
 आईसी-36941 कर्नल (टीएस) अरविन्द निगम, आईएनएफ
 आईसी-37094 कर्नल (टीएस) बृज मोहन, आईएनएफ
 आईसी-37220 कर्नल उत्तम सिंह, आईएनएफ
 आईसी-37241 कर्नल (टीएस) जगदीश चन्दर, आईएनएफ
 आईसी-37261 कर्नल (टीएस) मनजीत सिंह सामरा, आईएनएफ
 आईसी-37430 कर्नल (टीएस) प्रमोद कुमार, आर्टी
 आईसी-37511 कर्नल रघु नाथन नामबियार, आर्टी
 आईसी-37523 कर्नल (टीएस) मोहिन्दर पाल सिंह, एसी
 आईसी-37608 कर्नल (टीएस) अतुल भटनागर, आर्टी
 आईसी-37619 कर्नल नंदन सिंह धपोला, आईएनएफ
 आईसी-37626 कर्नल (टीएस) हरेन्द्र दत्त मिश्रा, आर्टी
 आईसी-37639 कर्नल कवाडिया हरीश मोरारजी, आईएनएफ
 आईसी-37661 कर्नल कुलबीर सिंह पुरी, आर्टी
 आईसी-38194 कर्नल (टीएस) जैकब थॉमस काडाथिल, एईसी
 आईसी-38208 कर्नल प्रदीप पॉल, एईसी
 आईसी-39485 कर्नल सत्यवीर सिंह यादव, आईएनएफ
 आईसी-39989 कर्नल (टीएस) अजीत सिंह, एओसी
 आईसी-41405 कर्नल (टीएस) ध्रुव सिंह वर्मा, एससी
 एसएल-2740 कर्नल (टीएस) भूपेन्द्र सिंह, एपीटीसी
 एसएल-3125 कर्नल पी आर विजयन, आरओ
 एसएल-3351 ले कर्नल मल्लजोशयूला विश्वेश्वर राव, आरओ
 एसएल-3663 ले कर्नल मोहन सिंह रावत, क्यूएम
 एसएल-3745 ले कर्नल भरत सिंह, सिग्नल्स
 एसएल-3785 ले कर्नल मनमदन नायर पी, आर ओ
 एसएल-3950 ले कर्नल पी जयदेवन, ईएमई
 एसएल-4071 ले कर्नल लक्ष्मण वासुदेवराव गाले, आरओ
 आरसी-1079 मेजर एन एस राठौर, आईएनएफ
 आरसी-1083 मेजर वाई एन पाटील, ईएमई
 आरसी-1125 मेजर बलवीर सिंह संधु, एसी
 आरसी-1129 मेजर राणा कृष्णा बहादुर, आईएनएफ

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जनवरी 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-40594 कर्नल (टीएस) काशीनाथ डे, आईएनएफ
आईसी-31727 कर्नल आइवर जेम्स पिपल्स, आईएनएफ
आईसी-34367 कर्नल छोटू सिंह राठौर, एओसी
आईसी-34370 कर्नल (टीएस) पारसनाथ शुक्ला, मेक आईएनएफ
आईसी-34375 कर्नल एडवर्ड जेयराज, आर्टी
आईसी-34388 कर्नल (टीएस) पारसी माधवराव गोपीनाथ, एएडी
आईसी-34445 कर्नल शाकीर जैकब, एएडी
आईसी-34468 कर्नल राजेश प्रताप सिंह, आईएनएफ
आईसी-34485 कर्नल (टीएस) विजय कुमार सिन्हा, आर्टी
आईसी-34564 कर्नल पुथिनवितिल राघव मेनन रवि, आईएनएफ
आईसी-34857 कर्नल जसविंदर पाल सिंह, आईएनएफ
आईसी-35332 कर्नल (टीएस) विनय कुमार कौशल, आईएनएफ
आईसी-35435 कर्नल रोहित मोहन चौधरी, इंजीनियर्स
आईसी-35747 कर्नल (टीएस) राकेश दूबे, आईएनएफ
आईसी-36754 कर्नल कौशल चतुर्वेदी, आईएनएफ
आईसी-36889 कर्नल (टीएस) दीपक सिंह कालाकोती, ईएमई
आईसी-37177 कर्नल रामचन्द्र सिंह, आईएनएफ
आईसी-37180 कर्नल (टीएस) विनय कुमार सिंह मलिक, मेक आईएनएफ
आईसी-37335 कर्नल राजिन्दर सिंह, आईएनएफ
आईसी-37550 कर्नल डिप्पूजा मेलविले एन्ड्र्यू, आईएनएफ
आईसी-37658 कर्नल (टीएस) अजीत सिंह, आईएनएफ
आईसी-37710 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र सिंह सतावत, आईएनएफ
आईसी-38073 कर्नल (टीएस) अशोक सिंह पटिआल, आईएनएफ
आईसी-38136 कर्नल (टीएस) अनिल कुमार परमार, आईएनएफ
आईसी-38192 कर्नल (टीएस) किरण कांत जेटली, ईएमई
आईसी-38607 कर्नल देवव्रत कुंडु, इंजीनियर्स
आईसी-38639 कर्नल (टीएस) विनोद प्रकाश नौटियाल, सिग्नल्स
आईसी-39096 कर्नल (टीएस) माधव लालासाहेब सावंत, एओसी
आईसी-40316 कर्नल (टीएस) मनु सत्ती, आर्टी

आईसी-40473 कर्नल (टीएस) पदम बहादुर थापा, मेक आईएनएफ
आईसी-40567 कर्नल अग्नि कुमार सिंह, एएससी
आईसी-40666 कर्नल (टीएस) कपाली सुब्बा राजु, इंजीनियर्स
आईसी-41146 कर्नल (टीएस) गोपाल सिंह मेहता, आईएनटी
आईसी-41533 कर्नल (टीएस) वेद राम शर्मा, आर्टी
आईसी-41539 कर्नल (टीएस) सुनिल कुमार पान्डेय, सिग्नल्स
आईसी-41691 कर्नल (टीएस) रघुनाथ स्वेन, इंजीनियर्स
एसएल-3702 ले कर्नल झीरमिल जीत सिंह, सिग्नल्स
एसएल-2999 कर्नल (टीएस) जोय चटर्जी, एपीटीसी
एसएल-3107 कर्नल रतन मणि प्रधान, एसएल क्यूएम
एसएल-3343 ले कर्नल बृज मोहन तिवारी, एसएल आरओ
एसएल-3362 ले कर्नल अब्राहम पीटर्स, आर्टी
एसएल-3688 कर्नल रामचन्द्र केए, ईएमई
एसएल-3764 ले कर्नल राम प्रसाद डिमरी, एसएल क्यूएम
एसएल-3857 ले कर्नल एच पी सरकार, ईएमई (एसए)
एसएल-3860 ले कर्नल पत्तन दीन सिंह, ईएमई
एसएल-3886 ले कर्नल अविनाश कुमार, इंजीनियर्स
एसएल-4021 ले कर्नल सुखदेव राज, एसएल क्यूएम

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 28 फरवरी 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-34064 कर्नल अनुमुकुन्द रमेश मोहन, इंजीनियर्स
आईसी-34459 कर्नल नागेन्द्र कुमार वर्मा, आर्टी
आईसी-34578 कर्नल (टीएस) संतोष नारायण सबनीस, आईएनएफ
आईसी-34596 कर्नल अजय मोहे, आईएनएफ
आईसी-34627 कर्नल (टीएस) प्रदीप दीक्षित, आईएनएफ
आईसी-34896 कर्नल (टीएस) विनय कुमार मोहिया, एएससी
आईसी-34934 कर्नल (टीएस) अवतार सिंह मान, आईएनएफ
आईसी-34998 कर्नल सराचन्द्र बालु नैलिनिलयम जनार्दनन, आईएनएफ
आईसी-35012 कर्नल (टीएस) विनोद गोपालन, आईएनएफ
आईसी-35217 कर्नल प्रदीप राणा, आईएनएफ
आईसी-35311 कर्नल (टीएस) विपिन पाल भल्ला, आईएनएफ

आईसी-35329 कर्नल अनिल भाटिया, आईएनएफ
 आईसी-35345 कर्नल (टीएस) दलजीत सिंह, एसी
 आईसी-35355 कर्नल (टीएस) राहुल दत्तराय गुप्ते, एओसी
 आईसी-35363 कर्नल (टीएस) सुरेश शर्मा, आर्टी
 आईसी-35400 कर्नल (टीएस) मोहिन्दर पाल सिंह पदम, सिग्नल्स
 आईसी-35682 कर्नल (टीएस) कुरीगेकल स्टीफेन जॉस, मेक
 आईएनएफ

आईसी-35693 कर्नल (टीएस) मनिन्दर जोहुर, एसी
 आईसी-35720 कर्नल निशिल कुमार माथुर, आर्टी
 आईसी-35787 कर्नल (टीएस) अजय यादव, आईएनएफ
 आईसी-37079 कर्नल (टीएस) हरपाल सिंह राय, इंजीनियर्स
 आईसी-37332 कर्नल मोहन पान्डुरंग पाटिल, आईएनएफ
 आईसी-37426 कर्नल (टीएस) विनोद नारायणराव बारी, आईएनएफ
 आईसी-37499 कर्नल हरविन्दर सिंह, आईएनएफ
 आईसी-37522 कर्नल (टीएस) रिपु दमन, आर्टी
 आईसी-37528 कर्नल कंवर राज कंवल सिंह, आर्टी
 आईसी-37551 कर्नल (टीएस) सुनील कुमार पटनायक, मेक
 आईएनएफ

आईसी-37565 कर्नल (टीएस) सुखवंत सिंह शेखोन, आर्टी
 आईसी-38059 कर्नल (टीएस) मुकेश कुमार गुप्ता, आर्टी
 आईसी-38246 कर्नल (टीएस) गुरदीप सिंह गोरया, इंजीनियर्स
 आईसी-40418 कर्नल (टीएस) पवन कुमार, एओसी
 आईसी-40983 कर्नल (टीएस) दिमबेश्वर बरूआ, इंजीनियर्स
 आईसी-41448 कर्नल (टीएस) खुशवंत सिंह, इंजीनियर्स
 एसएल-3266 ले कर्नल केशर सिंह भैंसोरा, एओसी
 एसएल-3391 कर्नल सुभाष चन्दर, सिग्नल्स
 एसएल-3716 ले कर्नल विनायक महादेव थोसर, एसएल क्यूएम
 एसएल-3762 ले कर्नल कामन सिंह गुरूंग, आर्टी
 एसएल-3777 ले कर्नल राम दास भारद्वाज, एसएलआरओ
 एसएल-3856 ले कर्नल संतोष कुमार चौहान, ईएमई
 राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मार्च 2010 से
 उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति
 प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-31792 कर्नल (टीएस) किशोर अर्जुन रूपेरी, आईएनएफ

आईसी-34108 कर्नल (टीएस) संतोष कुमार पुरूस्ती, आईएनएफ
 आईसी-34478 कर्नल कुलविंदर जीत सिंह, आईएनएफ
 आईसी-34505 कर्नल (टीएस) महाप्रताप सिंह गिल, आर्टी
 आईसी-34534 कर्नल (टीएस) प्रदीप पान्डे, एसी
 आईसी-34842 कर्नल माधव विष्णु वेसविकार, आईएनएफ
 आईसी-34874 कर्नल (टीएस) अभिमन्यु स्वेन, आईएनएफ
 आईसी-34965 कर्नल सतनाम सिंह बग्गा, आर्टी
 आईसी-35117 कर्नल (टीएस) हरि राम पूनिया, मेक आईएनएफ
 आईसी-35882 कर्नल (टीएस) वासुदेव ललवानी, ईएमई
 आईसी-37139 कर्नल थायप्परामपिल जोसेफ डेविस, एसी
 आईसी-37237 कर्नल (टीएस) मनिकम अरूमुगम, इंजीनियर्स
 आईसी-37294 कर्नल हीतेन्द्र बहादुर, आईएनएफ
 आईसी-37466 कर्नल जगत सिंह मेहता, आईएनएफ
 आईसी-37510 कर्नल (टीएस) रामा मोहन कुमार, एओसी
 आईसी-37636 कर्नल (टीएस) भाभाग्रही झात्क सिंह, आईएनएफ
 आईसी-37693 कर्नल (टीएस) प्रकाश शर्मा, आईएनएफ
 आईसी-38078 कर्नल (टीएस) प्रसन्ना कुमार मिश्रा, आईएनएफ
 आईसी-38178 कर्नल (टीएस) इ एस सध्यानेसन, आईएनएफ
 आईसी-38191 कर्नल (टीएस) राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
 आईसी-38616 कर्नल (टीएस) रविन्द्र बालकृष्णा बापट, एएडी
 आईसी-39044 कर्नल (टीएस) जगदीश प्रसार साहु, ईएमई
 आईसी-39663 कर्नल (टीएस) दीन दयाल, आईएनएफ
 आईसी-39805 कर्नल (टीएस) सुल्तान सिंह मलिक, ईएमई
 आईसी-40338 कर्नल (टीएस) बलदेव सिंह, आर्टी
 आईसी-40931 कर्नल (टीएस) शेखर चन्द्र पान्डेय, आर्टी
 आईसी-41728 कर्नल (टीएस) जसवंत सिंह पंडेर, आर्टी
 आईसी-42975 ले कर्नल मोहन सिंह, एओसी
 एसएल-3317 ले कर्नल पूरण चन्द, क्यूएम
 एसएल-3338 ले कर्नल कुलदीप सिंह, आर ओ
 एसएल-3547 ले कर्नल श्री पाल चहल, आरओ
 एसएल-3675 ले कर्नल अमरजीत सिंह, क्यूएम
 एसएल-3789 ले कर्नल परथा मजुमदार, आरओ
 एसएल-3864 ले कर्नल प्रफुल्ल कुमार नंदा, सिग्नल्स

एसएल-3878 ले कर्नल सुमितार सिंह, क्यूएम

एसएल-3918 ले कर्नल कर सुबल कुमार, सिग्नल्स

एसएल-4057 ले कर्नल गंगा सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-336 कर्नल मुखविंदर जीत सिंह गिल, आरभीसी

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 अप्रैल 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति करते हैं :—

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-34877 कर्नल पोथेरी चेरुवेरी धनराज, आईएनएफ

आईसी-34384 कर्नल बलराम पाल सिंह, एसी

आईसी-34435 कर्नल (टीएस) बालासाहेब पुरुषोत्तम पाटिल, एएडी

आईसी-34439 कर्नल (टीएस) शिवेन चन्द्र रॉय, आईएनएफ

आईसी-34476 कर्नल अनिल मिश्रा, एससी

आईसी-34616 कर्नल (टीएस) सुभाष चन्द्र चट्टा, एससी

आईसी-34634 कर्नल प्रशांता कुमार साहु, सिग्नल्स

आईसी-34834 कर्नल गरुगु रघु रामी रेड्डी, आर्टी

आईसी-34863 कर्नल (टीएस) वासुदेवन नायर भगवान प्रसाद, आईएनएफ

आईसी-34870 कर्नल (टीएस) राज मोहन मंगराज, आर्टी

आईसी-34909 कर्नल हरमोहिन्दर सिंह चौहान, आईएनएफ

आईसी-35133 कर्नल (टीएस) नरजीत सिंह, एसी

आईसी-35328 कर्नल (टीएस) बालाकृष्णन सुरेश कुमार नायर, आईएनएफ

आईसी-35582 कर्नल (टीएस) परमिंदर सिंह संधु, आईएनएफ

आईसी-35792 कर्नल (टीएस) राम चन्द्र चौधरी, इंजीनियर्स

आईसी-36881 कर्नल उमेश चन्द्रा, सिग्नल्स

आईसी-37018 कर्नल दीपिन्दर सिंह सराव, आर्टी

आईसी-37216 कर्नल (टीएस) रघुवीर सिंह अन्दोत्ता, आईएनएफ

आईसी-37354 कर्नल दीपक रैना, एओसी

आईसी-37383 कर्नल (टीएस) जसवंत सिंह, एएडी

आईसी-37403 कर्नल (टीएस) पिशारोडी जयकृष्णन, सिग्नल्स

आईसी-37469 कर्नल (टीएस) कोइलपित्वाई जैकब कृष्णादास जेलडो, एसी

आईसी-37478 कर्नल (टीएस) अशोक श्रीपद नायक, आर्टी

आईसी-37505 कर्नल विजयकुमार पी, आईएनएफ

आईसी-37599 कर्नल (टीएस) कुलवंत सिंह शेखोन, एओसी

आईसी-37621 कर्नल (टीएस) नरिन्दर सिंह खत्री, आईएनटी

आईसी-37631 कर्नल (टीएस) विरेन्द्र कुमार, आर्टी

आईसी-38153 कर्नल (टीएस) विनोद चेरियन, एएडी

आईसी-38594 कर्नल शुभाशिश चौधरी, इंजीनियर्स

आईसी-38614 कर्नल (टीएस) सुनील कुमार सहगल, सिग्नल्स

आईसी-39427 कर्नल (टीएस) अरूण कुमार गांधी, ईएमई

आईसी-39835 कर्नल (टीएस) गज़नफर हुसैन, इंजीनियर्स

आईसी-39963 कर्नल (टीएस) रवि केपीभी, आर्टी

आईसी-40388 कर्नल (टीएस) देवा नामग्याल भोटिया, आर्टी

आईसी-40553 कर्नल (टीएस) मदन सिंह नेगी, एओसी

आईसी-40687 कर्नल राजशेकरन एस, एओसी

आईसी-41285 कर्नल (टीएस) स्वरूप चंद, मेक आईएनएफ

आईसी-41336 कर्नल (टीएस) अनन्त चरण बेहेरा, आईएनएफ

आईसी-41558 ले कर्नल दिलबाग सिंह, एससी

आईसी-41615 कर्नल (टीएस) बलबीर सिंह, आईएनएफ

एसएल-3149 कर्नल जगदेव सिंह, आरओ

एसएल-3668 कर्नल मणि राम यादव, आर्टी

एसएल-3248 ले कर्नल किशोर चन्द्रा गिलदियाल, सिग्नल्स

एसएल-3793 ले कर्नल अवतार सिंह मिन्हास, क्यूएम

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-31738 कर्नल (टीएस) विजय कुमार रस्तोगी, आईएनएफ

आईसी-34134 कर्नल (टीएस) राजकुमार शर्मा, एसी

आईसी-34390 कर्नल सुखजीत सिंह यादव, आर्टी

आईसी-34580 कर्नल (टीएस) बुद्धा बिकाश गोहैन बरूआ, आर्टी

आईसी-34584 कर्नल (टीएस) राजीव बोहरा, आर्टी

आईसी-34767 कर्नल धरम चंद शर्मा, आईएनएफ

आईसी-34810 कर्नल (टीएस) इकबाल सिंह रूपेरिया, आईएनएफ

आईसी-34919 कर्नल (टीएस) आकाशदीप आनन्द, आईएनएफ

आईसी-34923 कर्नल कर्नल (टीएस) राजीव सूद, आर्टी
 आईसी-34930 कर्नल राजेन्द्र कल्याण बोकर, आर्टी
 आईसी-35107 कर्नल (टीएस) उत्तम वामनराव, एससी
 आईसी-35209 कर्नल (टीएस) सतेन्द्र नाथ गुप्ता, आईएनएफ
 आईसी-35255 कर्नल कंवर कृषेण बादम, एएडी
 आईसी-35259 कर्नल आलोक बाजपेयी, इन्जीनियर्स
 आईसी-35299 कर्नल (टीएस) मोहम्मद युसुफ स्टालिन, आईएनएफ
 आईसी-35677 कर्नल अमरजीत सिंह, आर्टी
 आईसी-35733 कर्नल रविन्दर सिंह डागर, आर्टी
 आईसी-35740 कर्नल (टीएस) राजेन्द्र देव कौशिक, आईएनएफ
 आईसी-37025 कर्नल (टीएस) नरीन्दर सिंह दुगल, आईएनएफ
 आईसी-37051 कर्नल (टीएस) मनीन्दर पॉल सिंह मैनी, आर्टी
 आईसी-37215 कर्नल (टीएस) नरेश कुमार सिंह, आईएनएफ
 आईसी-37231 कर्नल (टीएस) परमजीत सिंह, एओसी
 आईसी-37322 कर्नल (टीएस) विजय कुमार प्रसाद, एओसी
 आईसी-37336 कर्नल (टीएस) समुन्दर सिंह सांगवान, आईएनएफ
 आईसी-37446 कर्नल विजयन कान्नुवेलिल इश्वरन, इन्जीनियर्स
 आईसी-37537 कर्नल नारायण दादासाहेब पाटिल, इन्जीनियर्स
 आईसी-37568 कर्नल (टीएस) राय बहादुर सिंह कंवर, आईएनएफ
 आईसी-37600 कर्नल (टीएस) रमन कुमार सावनी, आईएनएफ
 आईसी-37633 कर्नल (टीएस) नाम्बीयार रघुनाथन एम राघवन, आईएनएफ
 आईसी-38074 कर्नल जसबिन्दर सिंह सेखोन, आईएनएफ
 आईसी-38238 ले कर्नल कोल्लुकुडुरु सुधाकर रेड्डी, ईएमई
 आईसी-38634 कर्नल (टीएस) पियूष जोशी, ईएमई
 आईसी-39416 कर्नल (टीएस) संजीव कुमार शर्मा, सिग्नल्स
 आईसी-40524 कर्नल (टीएस) कैलाश कुमार कौशल, आईएनएफ
 आईसी-40583 कर्नल (टीएस) प्रीतम चंद कौन्डल, आर्टी
 आईसी-40625 कर्नल (टीएस) केशव प्रसाद मिश्रा, ईएमई
 आईसी-40632 कर्नल (टीएस) कादुर मलेशी, इन्जीनियर्स
 आईसी-40650 कर्नल (टीएस) टी डेविड प्रसाद, आईएनएफ
 आईसी-40780 ले कर्नल सुरजीत सिंह, आर्टी
 आईसी-41014 कर्नल (टीएस) मोहन लाल तिवारी, आर्टी

आईसी-41322 कर्नल (टीएस) कोथीवाले कैलाश बाबुराव, इन्जीनियर्स

आईसी-41584 कर्नल (टीएस) नरेन्द्र कुमार सिंह, एससी

आईसी-41777 कर्नल (टीएस) बाहुलेयन नाथर जी, आईएनएफ

आईसी-42082 कर्नल (टीएस) देसुख पंजाब, सिग्नल्स

एसएल-3152 कर्नल सुखविंदर सिंह, आरओ

एसएल-3281 ले कर्नल अजमेल सिंह, ईएमई

एसएल-3535 ले कर्नल सुभाष सिंह पठनिया, आरओ

एसएल-3756 ले कर्नल गंगा लाल रायार, आरओ

एसएल-3808 ले कर्नल अजीत सिंह, ईएमई

एसएल-3990 ले कर्नल यशपाल सिंह, आरओ

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 जून 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-34188 कर्नल रमेश प्रताप सिंह, आईएनएफ

आईसी-34514 कर्नल (टीएस) भुवनेश्वर बारेठ, आईएनएफ

आईसी-34601 कर्नल (टीएस) आशिष कुमार बोस, आर्टी

आईसी-34771 कर्नल (टीएस) विभव प्रकाश त्रिपाठी, आईएनएफ

आईसी-34772 कर्नल जगदीश चन्द्र मेहेन्दरता, आईएनएफ

आईसी-34807 कर्नल राजेन्द्र पाल सिंह रावत, इन्जीनियर्स

आईसी-34809 कर्नल (टीएस) राजवीर सिंह अहलावत, आईएनएफ

आईसी-34819 कर्नल (टीएस) दीपेन्द्र किशोर कचारी, एसी

आईसी-34871 कर्नल (टीएस) देविन्दर कुमार, आर्टी

आईसी-34924 कर्नल (टीएस) रतन सिंह, आईएनएफ

आईसी-34946 कर्नल (टीएस) भानुदास बिट्टल काटकर, एसी

आईसी-34955 कर्नल (टीएस) आनन्द शर्मा, आईएनएफ

आईसी-35192 कर्नल (टीएस) गुरमीत सिंह, एओसी

आईसी-35247 कर्नल (टीएस) अवधेश कुमार, आईएनएफ

आईसी-35274 कर्नल विनोद कुमार, आईएनएफ

आईसी-35414 कर्नल (टीएस) इन्द्र वीर सिंह सिसोदिया, सिग्नल्स

आईसी-35492 कर्नल दिगम्बर आनन्द राव पाटिल, आईएनएफ

आईसी-35590 कर्नल (टीएस) रंजीत चटर्जी, आर्टी

आईसी-35649 कर्नल विजय कुमार सिंह, आर्टी

आईसी-35775 कर्नल (टीएस) सुकुमारन कांडाङ्कोटे सुरेश, आर्टी
 आईसी-37029 कर्नल (टीएस) राजाराम परशुराम माहेकर, आईएनएफ
 आईसी-37060 कर्नल (टीएस) भरत भूषण, आर्टी
 आईसी-37147 कर्नल (टीएस) जगदीप राज शर्मा, एएडी
 आईसी-37266 कर्नल (टीएस) अभय कुमार दीक्षित, एओसी
 आईसी-37308 कर्नल रमन कुमार मेहरा, इन्जीनियर्स
 आईसी-37364 कर्नल (टीएस) अशोक कुमार आर्या, आर्टी
 आईसी-37495 कर्नल (टीएस) पितोहुमानी जयराज, आईएनएफ
 आईसी-37566 कर्नल तेजिन्दर सिंह ब्रा, आईएनएफ
 आईसी-37613 कर्नल (टीएस) अनिल प्रकाश त्यागी, आईएनएफ
 आईसी-37685 कर्नल हरजिन्दर जीत सिंह, एओसी
 आईसी-37691 कर्नल (टीएस) सतिन्दर वीर सिंह, आईएनएफ
 आईसी-38154 कर्नल एम श्रीकुमार नायर, आईएनएफ
 आईसी-38252 कर्नल (टीएस) अनिल कुमार उपरेती, ईएमई
 आईसी-39032 कर्नल अखाडे शशिकांत निवरुत्ती, सिग्नल्स
 आईसी-39850 कर्नल (टीएस) अनुपम शुक्ला, इन्जीनियर्स
 आईसी-39974 कर्नल (टीएस) घनश्याम मिश्रा, आर्टी
 आईसी-40325 कर्नल (टीएस) हृदय नारायण कौशल, ईएमई
 आईसी-40670 कर्नल (टीएस) कुलवंत सिंह, इन्जीनियर्स
 आईसी-41031 कर्नल (टीएस) सुब्रामनियम सी, आईएनएफ
 आईसी-41093 कर्नल जोय डेनियल, आर्टी
 आईसी-41678 कर्नल (टीएस) राधा रमन पालिवाल, एओसी
 आईसी-41697 कर्नल (टीएस) शंभु नाथ शर्मा, आईएनएफ
 एसएल-3562 ले कर्नल जयनारायण पी, ईएमई
 एसएल-3922 ले कर्नल हाकिम सिंह, क्यूएम
 एसएल-3975 ले कर्नल बलदेव सिंह, आरओ
 एसएल-4019 ले कर्नल ए पद्मनाभन, सिग्नल्स
 एसएल-4102 ले कर्नल एम मनिकम, क्यूएम
 राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जुलाई 2010 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।
 नियमित सेना स्थाई कमीशन
 आईसी-34404 कर्नल अजीत पाल सिंह, एओसी

आईसी-34639 कर्नल (टीएस) बिरेन्द्र सिंह रावत, आईएनएफ
 आईसी-34778 कर्नल (टीएस) लसप्रीत सिंह मंगत, सिग्नल्स
 आईसी-34881 कर्नल मुकेश मल्होत्रा, आर्टी
 आईसी-35162 कर्नल कंवल कुमार शर्मा, आईएनएफ
 आईसी-35190 कर्नल (टीएस) जगदीप मोहन अरोरा, आईएनएफ
 आईसी-35245 कर्नल (टीएस) सुरेश पुरुषोत्तम गाडगिल, आईएनएफ
 आईसी-35474 कर्नल मदन मोहन शुक्ला, आईएनएफ
 आईसी-35514 कर्नल विजय कुमार मदन, आर्टी
 आईसी-35768 कर्नल अशोक कुमार शर्मा, आर्टी
 आईसी-35979 कर्नल जसविंदर सिंह सुरज, आईएनएफ
 आईसी-37026 कर्नल जोहन संपथ कुमार राव, आईएनएफ
 आईसी-37262 कर्नल (टीएस) सुधीर कुमार चतुर्वेदी, आईएनएफ
 आईसी-37271 कर्नल राजीव सूद, एओसी
 आईसी-37365 कर्नल (टीएस) किशोर सिंह जोधा, आईएनएफ
 आईसी-37405 कर्नल (टीएस) गोविंदास्वामी प्रताप राजू, आर्टी
 आईसी-37526 कर्नल (टीएस) कमल कुमार चौधरी, एसी
 आईसी-37765 कर्नल प्रदीप कुमार सिन्हा, आर्टी
 आईसी-38119 कर्नल (टीएस) महिपाल सिंह यादव, आर्टी
 आईसी-38166 कर्नल (टीएस) रविन्दर सिंह, एओसी
 आईसी-38212 कर्नल (टीएस) गणेश चन्द्र शाह, ईएमई
 आईसी-38462 कर्नल विमल कुमार, आर्टी
 आईसी-39024 कर्नल कृष्णन कुमार पट्टुजा, इन्जीनियर्स
 आईसी-39861 कर्नल (टीएस) कोनानुर सूर्यनारायणप्पा वेंकटेश, ईएमई
 आईसी-40460 कर्नल (टीएस) भानु भक्त लेखक, आर्टी
 आईसी-40938 कर्नल (टीएस) निरंजन पाती, आर्टी
 आईसी-41059 कर्नल (टीएस) राजवीर सिंह, ईएमई
 आईसी-41262 कर्नल (टीएस) सुरिन्दर कुमार शर्मा, आर्टी
 आईसी-41617 कर्नल (टीएस) सुरिन्दर सिंह सामब्याल, आईएनएफ
 आईसी-41798 कर्नल (टीएस) राम शंकर सक्सेना, एओसी
 आईसी-42046 कर्नल शिविन्दर सिंह, आईएनएफ
 आईसी-42112 ले कर्नल राम सागर शुक्ला, इन्जीनियर्स
 आईसी-42114 कर्नल (टीएस) शंकर प्रसाद शुक्ला, इन्जीनियर्स
 एसएल-3677 ले कर्नल अजय कुमार, ईएमई

एसएल-3815 ले कर्नल मेहर सिंह, ईएमई

एसएल-4051 ले कर्नल ए ए रेथीनाम, क्यू एम

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 अगस्त 2010 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-31123 कर्नल मनमोहन सिंह जसवाल, जैग

आईसी-34364 कर्नल गुर किरत सिंह, आईएनएफ

आईसी-34555 कर्नल संदीप कुमार, आईएनएफ

आईसी-34763 कर्नल अनिल कांत शर्मा, एसी

आईसी-34826 कर्नल (टीएस) विपेन किशोर खुल्लर, आईएनएफ

आईसी-34997 कर्नल सुनील बाली, आईएनएफ

आईसी-35178 कर्नल राजवीर सिंह चिल्लर, एओसी

आईसी-35184 कर्नल (टीएस) बिरजू सिंह राठौर, एएडी

आईसी-35203 कर्नल (टीएस) राजीव अहलुवालिया, एएडी

आईसी-35240 कर्नल (टीएस) शक्ति कुमार जेटली, आर्टी

आईसी-35253 कर्नल (टीएस) अनिल बाली, आईएनएफ

आईसी-35268 कर्नल (टीएस) कौशल कुमार सिरकर, आईएनएफ

आईसी-35322 मेजर अमर जीत सिंह बाजवा, एससी

आईसी-35638 कर्नल (टीएस) मोहितोष मुखर्जी, आईएनएफ

आईसी-35778 कर्नल (टीएस) देविन्दर सिंह, आर्टी

आईसी-37175 कर्नल विरेन्द्र चंद कटोच, एसी

आईसी-37270 कर्नल (टीएस) हेमंत भोउरास्कर, आईएनएफ

आईसी-37541 कर्नल सुदर्शन सिंह बिष्ट, आईएनएफ

आईसी-37624 कर्नल (टीएस) परमजीत सिंह बैन्स, आईएनएफ

आईसी-37629 कर्नल (टीएस) नरीन्दर सिंह सुजलाना, एओसी

आईसी-37635 कर्नल (टीएस) उन्नी चन्द्र शेखर, आईएनएफ

आईसी-37666 कर्नल (टीएस) सत्ताम सिंह, आर्टी

आईसी-37718 कर्नल (टीएस) विजय राज सिंह, आईएनएफ

आईसी-37721 कर्नल (टीएस) प्रशांत कुमार सीभी, आईएनएफ

आईसी-38049 कर्नल अनिल मलिक, आईएनएफ

आईसी-39403 कर्नल (टीएस) दीपक गुप्ता, इन्जीनियर्स

आईसी-39820 कर्नल महेश कुमार भारद्वाज, ईएमई

आईसी-39827 कर्नल (टीएस) जतीन्दर सिंह धीमन, ईसी

आईसी-40667 कर्नल (टीएस) विरेन्द्र कुमार चौबे, इन्जीनियर्स

आईसी-41199 कर्नल (टीएस) प्रताप सिंह, आर्टी

आईसी-41800 ले कर्नल विनोद कुमार गोइन्दी, एससी

आईसी-42196 कर्नल (टीएस) यशवीर सिंह, आईएनएफ

आईसी-42243 ले कर्नल एम्मानुएल पवित्रादर्शन दयाल, इन्जीनियर्स

एसएल-3721 ले कर्नल अभिलाष सिंह, सिग्नल्स

एसएल-3810 ले कर्नल भीडे सुनील वासुदेव, ईएमई

एसएल-4149 ले कर्नल रविन्दर सिंह शाही, आरओ

एसएल-4372 मेजर राज कुमार गुरून्ग, ईसी

जयन्त चक्रवर्ती

उप निदेशक

एमएस-7ए

एमएस सेवा निवृत्ति

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th March 2012

ARMY BRANCH

No. 103, dated 1st February 2012—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

The undermentioned Gentlemen Cadets of 128 Regular Course (128 DE, 118 Ex NDA and 95 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 11 Jun 2011 except one GC vide IC No. 75581K who was LMC and after being S1H1A1P1E1 he has been granted Permanent Commission wef 19 Jul 2011 (F/N), under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC)

(IC No.) Name, Arm/Services

(IC-75296L) Ramkumar B, Inf

(IC-75297M) Raghav Swarup Gupta, Inf

(IC-75298W) Shinde Prashant Pandharinath, AC

(IC-75299Y) Rohit Shekhar, Inf

(IC-75300H) Sourabh Kabra, Inf

(IC-75301L) Suveer Rathore, Inf

(IC-75302N) Abhimanyu Sharma, Inf

(IC-75303W) Narendra Singh Shekhawat, Inf

(IC-75304Y) Parth Chandel, Inf

(IC-75305F) Piyush Singh, Arty

(IC-75306K) Mohit Sharma, ASC

(IC-75307M) Vasu Banathia, Inf

(IC-75308P) Mohd Arshil Muheet, AAD

(IC-75309X) Abhishek Sharma, Inf

(IC-75310M) Himanshu Thapliyal, Mech Inf

(IC-75311P) Dinesh Chahar, Arty

(IC-75312X) Shakti Singh, Arty

(IC-75313A) Junaid Bini Saiyidain Beg, AC

(IC-75314H) T Anurag, Inf

(IC-75315L) Manoj Kanwal, AOC

(IC-75316N) Arjun Panwar, Engrs

(IC-75317W) Amit Kumar, Inf

(IC-75318Y) Humesh Tuteja, Arty

(IC-75319F) Vinayak Gupta, Arty

(IC-75320W) Shwetank Tyagi, Arty

(IC-75321Y) Diwakar Kumar, AOC

(IC-75322F) Anand Nashikkar, Inf

(IC-75323K) Akshay Rajendra Pisal, Arty

(IC-75324M) Shaswat Kumar, Arty

(IC-75325P) Anand Kumar Tiwari, Inf

(IC-75326X) Lokendra Patel, AVN

(IC-75327A) Sarthak Tyagi, Inf

(IC-75328H) Sushant Gaur, Arty

(IC-75329L) C V S Nikhil, Inf

(IC-75330A) Pravesh Kumar, Inf

(IC-75331H) Sandeep Patnaik, ASC

(IC-75332L) Gopa Kumar G, Inf

(IC-75333N) Singh Abhishek Nepal Singh, Inf

(IC-75334W) Ashutosh Shukla, Arty

(IC-75335Y) Pankaj Bisht, AAD

(IC-75336F) Bhuvan Vikram, Arty

(IC-75337A) Sukhwinder Singh, EME

(IC-75338M) Dayanand Singh, Inf

(IC-75339P) Nakul Sharma, Inf

(IC-75340K) Amet Vikram, Inf

(IC-75341M) Sudhir Kumar Kala, AC

(IC-75342P) Samarjeet Singh Dehal, Inf

(IC-75343X) Amit Kumar Tyagi, Inf

(IC-75344A) Ardhendu Kumar, Mech Inf

(IC-75345H) Mayank Mishra, Arty

(IC-75346L) Rajib Kumar Sahoo, Sigs

(IC-75347N) Neeraj Nandakumar, Arty

(IC-75348W) Praveen Kumar Tiwari, Inf

(IC-75349Y) Sumant Tyagi, Arty

(IC-75350N) Akhil Kumar Tripathi, Inf

(IC-75351W) Amar Vijaykumar Bombatkar, Inf

(IC-75352Y) Praveen Nandkumar Kale, Inf

(IC-75353F) Harish Boora, Inf

(IC-75354K) Kuna Anil Kumar, Arty

(IC-75355M) Surender Singh, Arty

(IC-75356P) M R Suhas, Inf

(IC-75357X) Harsh Gupta, Inf	(IC-75395N) Jainendra Kumar, Arty
(IC-75358A) Rajkumar, Int	(IC-75396W) Amit Kumar, Inf
(IC-75359H) Karamveer Bajroliya, Inf	(IC-75397Y) Mrunal Kewal Dongare, Sigs
(IC-75360X) Govind Singh Karki, Inf	(IC-75398F) Sumit Dattatray Martande, Inf
(IC-75361A) Ashwani Kumar, Sigs	(IC-75399K) Ankit Kumar Poonia, Arty
(IC-75362H) Vimal Roy, Inf	(IC-75400N) Joginder Singh, Arty
(IC-75363L) Ritapa, Inf	(IC-75401W) Santosh Kumar Singh, Inf
(IC-75364N) Satvinder Singh, Arty	(IC-75402Y) Rakesh Kumar Singh, ASC
(IC-75365W) Suchi Brat Mandal, Inf	(IC-75403F) Nitin Mistry, Arty
(IC-75366Y) More Rahul Tanaji, EME	(IC-75404K) Pramod Kumar, AOC
(IC-75367F) Amit Pratap Singh, Arty	(IC-75405M) Balaji S, Arty
(IC-75368K) Sudesh J, Arty	(IC-75406P) Vinod Kumar Pany, Mech Inf
(IC-75369M) Sumit Sharma, Inf	(IC-75407X) Ishan Pal, Engrs
(IC-75370F) Alok Bhaskar, Inf	(IC-75408A) Rajneesh Sharma, AC
(IC-75371K) Ambuj, AC	(IC-75409H) Manish, Arty
(IC-75372M) Ashish Kumar Singh, ASC	(IC-75410X) Vikrant Paul, Inf
(IC-75373P) Tarun Bhardwaj, Inf	(IC-75411A) Muneet Singh, Inf
(IC-75374X) R Kaushal, Arty	(IC-75412H) Gagandeep Singh, ASC
(IC-75375A) Yogesh Kumar Shukla, AVN	(IC-75413L) Sudhir Kumar, AOC
(IC-75376H) Ranjitsinh Niteen Sonawane, Inf	(IC-75414N) Hitesh Yadav, Inf
(IC-75377L) G Satish Kumar, Arty	(IC-75415W) Sartaj Pal Singh, Engrs
(IC-75378N) Lalit Kandpal, Inf	(IC-75416Y) Dheeraj Jodha, Inf
(IC-75379W) Puneet Choudhary, EME	(IC-75417F) Sumit Kumar Tiwari, Arty
(IC-75380L) Virender Singh, AAD	(IC-75418K) Akshansh Sharma, Arty
(IC-75381N) Abhijit Singh Tomar, Int	(IC-75419M) Ravindra Kumar Verma, ASC
(IC-75382W) Neeraj Kumar Gaur, AC	(IC-75420F) Jaishankar, Inf
(IC-75383Y) Abhay Singh, Inf	(IC-75421K) Mudapaka Dinesh Kumar, Inf
(IC-75384F) Parvez Alam, Inf	(IC-75422M) Karmendra Krishna, Arty
(IC-75385K) Sudhir Kumar, ASC	(IC-75423P) Nitesh Kumar, Inf
(IC-75386M) Jarmal Singh, EME	(IC-75424X) Yogesh, AOC
(IC-75387P) Lalit Singh Soun, Arty	(IC-75425A) Chandra Shakher Vashistha, Arty
(IC-75388X) Prerak Joshy, Inf	(IC-75426H) Manish Kumar, Inf
(IC-75389A) Prashant Chaudhary, AOC	(IC-75427L) Suraj Pratap Singh, ASC
(IC-75390P) Roopesh Kumar Upadhyay, Arty	(IC-75428N) Anshul Kharyal, Arty
(IC-75391X) Simarpreet Singh, AC	(IC-75429W) Ankur Kumar Bashotra, AVN
(IC-75392A) Manish Ponia, Engrs	(IC-75430L) Saikat Bhattacharya, Inf
(IC-75393H) Neikhotso Secu Angami, Inf	(IC-75431N) Mudit Gulati, AC

(IC-75432W) Deepak Kumar Mishra, AAD	(IC-75469X) M Hemjit Moirang, Arty
(IC-75433Y) Udit Rana, Inf	(IC-75470M) Happy Charak, Inf
(IC-75434F) Nitish Sharma, AOC	(IC-75471P) Dheeraj, Inf
(IC-75435K) Sameer Kumar, Arty	(IC-75472X) Vishal Kumar Choudhary, Inf
(IC-75436M) Bhatt Kashyap Hemant, Sigs	(IC-75473A) Kumar Sunjeet, Arty
(IC-75437P) Prabal Singh, ASC	(IC-75474H) Gaurav Balhara, Engrs
(IC-75438X) Prateek Saxena, Inf	(IC-75475L) Ravinder Kumar Jakhar, Arty
(IC-75439A) Subhash Bishnoi, Arty	(IC-75476N) S Gopinath Yadav, AAD
(IC-75440P) George Thaliath, Inf	(IC-75477W) Kunwar Prashant Singh, Inf
(IC-75441X) Hitesh Malik, EME	(IC-75478Y) Amol Preet Singh Bala, AVN
(IC-75442A) Shailendra Sheoran, Arty	(IC-75479F) Mohit Malik, Arty
(IC-75443H) Abhishek Rajvanshi, Arty	(IC-75480W) Nyamnyi Phom, Inf
(IC-75444L) Himanshu Tewari, Arty	(IC-75481Y) Pradeep Kumar Bhuyan, Arty
(IC-75445N) Alex Lalmanpuia, Int	(IC-75482F) Arjun Rathi, EME
(IC-75446W) Ankush Kumar, Arty	(IC-75483K) Jorawar Singh, Arty
(IC-75447Y) Rajib Chhetri, Arty	(IC-75484M) Ankur Tiwari, AC
(IC-75448F) Biranjay Kumar, Inf	(IC-75485P) Puneet Sharan, Arty
(IC-75449K) Prashant Soni, AAD	(IC-75486X) Gaurav Kumar, Arty
(IC-75450Y) Shyamal Khare, AAD	(IC-75487A) Mohit Khattri, Arty
(IC-75451F) Rohit Mandhotra, AC	(IC-75488H) Pappu Kumar Yadav, Arty
(IC-75452K) Ankit Singh, Arty	(IC-75489L) Vaibhav Verma, AOC
(IC-75453M) Kunal Mahajan, Arty	(IC-75490A) Parminder Singh, Inf
(IC-75454P) Aditya Kumar, Inf	(IC-75491H) Rahul Balamohan, Inf
(IC-75455X) Subrata Kumar Misra, Arty	(IC-75492L) Abhishek Singh Nabiyaal, Inf
(IC-75456A) Sahil Sharma, Engrs	(IC-75493N) Vikrant Verma, AOC
(IC-75457H) Ram Chandra Thapa, Inf	(IC-75494W) Satyam Kumar Dubey, Arty
(IC-75458L) Rakesh Kumar, AC	(IC-75495Y) Koushik G, Sigs
(IC-75459N) Pankaj Bhattacharjee, Inf	(IC-75496F) Rudrashish Majumder, AOC
(IC-75460H) Sangram Singh, AAD	(IC-75497K) Mohd Ashraf Mir, AOC
(IC-75461L) Saket Kumar, Inf	(IC-75498M) M Arunkumar, Inf
(IC-75462N) Pawanpreet Singh, Inf	(IC-75499P) Radheshyam, Inf
(IC-75463W) Swagat Das, Inf	(IC-75500Y) Sunil Kumar, Mech Inf
(IC-75464Y) Nilanjan Batabyal, Inf	(IC-75501F) Gaurav Sharad Jadhav, Arty
(IC-75465F) Abhishek Kumar, AOC	(IC-75502K) Ashwini Kumar Singh, Arty
(IC-75466K) Vijay Rai, Arty	(IC-75503M) Sandeep Singh Bhamra, Inf
(IC-75467N) Ashutosh Parashar, AOC	(IC-75504P) Arpit Rana, ASC
(IC-75468P) Aashish Kumar, Engrs	(IC-75505X) Rana Wasim Ahmed Sharafat Ali, Arty

(IC-75506A) Aman Sharma, AC	(IC-75543N) Vijay Kumar, Arty
(IC-75507H) Vivek Sangwan, Int	(IC-75544W) Mayank Kumar Singh, AC
(IC-75508L) Gaurav Rawat, Inf	(IC-75545Y) Prem Singh, Arty
(IC-75509N) Sunil Kumar, Inf	(IC-75546F) Birendra Kumar, Arty
(IC-75510H) Tarif Singh, EME	(IC-75547K) Saurav Sharma, Inf
(IC-75511L) Prashant Srivastav, Arty	(IC-75548M) Trishay Singh Shekhawat, Inf
(IC-75512N) Ajay Pratap Singh, Inf	(IC-75549P) Redkar Pranav Mangesh, Inf
(IC-75513W) Kripendra Singh, Inf	(IC-75550K) Abhay Pundir, Inf
(IC-75514Y) Vivek Gangal, Arty	(IC-75551M) Navneet Thakur, Inf
(IC-75515F) Ankit Sheokand, ASC	(IC-75552P) Laishram Manoranjan Singh, Inf
(IC-75516K) Naveen Jajunda, Inf	(IC-75553X) Kumar Abhishek, AVN
(IC-75517M) Pramod Kumar Kasana, ASC	(IC-75554A) Paritosh Rawat, Arty
(IC-75518P) Durgeshwar Pratap Singh, Inf	(IC-75555H) Gurdil Singh Johal, Arty
(IC-75519X) Pabitra Kumar Majumdar, Arty	(IC-75556L) Vinender Yadav, Inf
(IC-75520M) Rinku Panda, Arty	(IC-75557N) Swadesh Kumar Dubey, AC
(IC-75521P) Deepak Kumar, Arty	(IC-75558W) Ritesh Sangwan, Inf
(IC-75522X) Abhishek R Chandavarkar, AAD	(IC-75559Y) Debesh Banik, Inf
(IC-75523A) Akhil, AVN	(IC-75560N) Harshdeep Singh, Inf
(IC-75524H) Vikas Sheoran, Inf	(IC-75561W) Ashutosh Tiwari, ASC
(IC-75525L) Yashwant Singh, Arty	(IC-75562Y) Brajesh Beniwal, Arty
(IC-75526N) Priyanker Dutta, Arty	(IC-75563F) Amit Gunjan, Inf
(IC-75527W) Anshul Choudhary, AC	(IC-75564K) Upal Sengupta, Inf
(IC-75528Y) Antariksha Gaur, AAD	(IC-75565M) Ramnath J R, Inf
(IC-75529F) Sudhir Kumar Tomar, ASC	(IC-75566P) Abhishek Diwan, Arty
(IC-75530W) Rahul Malhotra, AC	(IC-75567X) Dharmveer Singh, EME
(IC-75531Y) Vinay Raj Singh Chauhan, Arty	(IC-75568A) Rajpal Singh Shekhawat, Inf
(IC-75532F) Sangram Singh Chib, EME	(IC-75569H) Tanmoy Biswas, Sigs
(IC-75533K) Gajender Sangwan, Arty	(IC-75570X) Abhishek Vishwanathan, Inf
(IC-75534M) Ankur Singh Rana, Engrs	(IC-75571A) Sushil Jakhar, Inf
(IC-75535P) Divyashankh Sarma, Mech Inf	(IC-75572H) Amar Singh, Inf
(IC-75536X) Dabhade Tushar Mrunalkant, Inf	(IC-75573L) Chandrakar Kumar Chouhan, Inf
(IC-75537A) Mridul Kant Chowdhury, Arty	(IC-75574N) Parolekar Darshan Prakash, Arty
(IC-75538H) John Kennedy Ningthoujam, Inf	(IC-75575W) Anoop Krishnan, Arty
(IC-75539L) Rajan Kumar, Int	(IC-75576Y) Sameer Kant Dwivedi, AAD
(IC-75540A) Mohit Dimri, Sigs	(IC-75577F) Arun Kumar R, Arty
(IC-75541H) Sunil Kumar, Arty	(IC-75578K) Himanshu Chaudhary, Arty
(IC-75542L) Sunit Mishra, Arty	(IC-75579M) Vyom Kumar, AC

(IC-75580F) Gaurav Anand Bourai, Engrs
 (IC-75581K) Sunit Kumar Singh, AOC
 (IC-75582M) Karan Thomas Joseph, Inf
 (IC-75583P) Ranjeet Kumar, ASC
 (IC-75584X) Vinay Kumar, Inf
 (IC-75585A) Akhlnath C H, Arty
 (IC-75586H) Rohit Kumar, Inf
 (IC-75587L) Amit Choudhary, Inf
 (IC-75588N) Lalit Kumar Pradhan, Inf
 (IC-75589W) Tushar Sinha, Inf
 (IC-75590L) Amit Sharma, Mech Inf
 (IC-75591N) Bhawani Singh, Inf
 (IC-75592W) Ambre Vaibhav Sunilkumar, Inf
 (IC-75593Y) Rane Siddhesh Arun, Inf
 (IC-75594F) Abhyudai Singh Chauhan, Inf
 (IC-75595K) Abir Kumar Ghosh, AOC
 (IC-75596M) Piyush Grover, Inf

RAHUL SANGWAN
 Lt Co
 AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 104, dated 1st February 2012—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officer with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Anil Kumar (MR-08281W) (AF-26069B), AMC, 22 Jul 2011

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Promila Rani (MS-14780F) (MR-08728H) (75837F), AMC, 17 Aug 2011

Capt to Maj

Bhaskar Gayen (MR-09113K), AMC, 20 Feb 2011

Rajesh R Nair (MR-09139Y), AMC, 20 Mar 2011

Sharad Kumar Goel (MS-15704F) (MR-09233H), AMC, 25 Apr 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 30 Apr 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Michael John K (MR-08372A), AMC, 20 Feb 2011
 Dharmendra Kumar (MR-08978K), AMC, 20 Feb 2011
 Parwinder Singh (MR-09114M), AMC, 20 Feb 2011

Flt Lt to Sqn Ldr

Dheeraj Yadav (MR-09133X) (AF-28874G), AMC, 01 Sep 2011

To be Capt

Somali Pattanayak (MS-15505N) (MR-09234L), AMC, 06 Feb 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 23 Aug 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Capt Manisha Jindal (MR-08848F), 11 Feb 2010

Capt Salil Kumar Gupta (MR-08884M), 11 Feb 2010

YASH PANDE
 Brig
 Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 105, dated 1st February 2012—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

To be Sub : (MT/SPL)

Nb Sub Bhajan Singh Yadav (JC-665195F), 16 Sep 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ajab Singh (JC-665907Y), 01 Oct 2011*

Nb Sub Sunil Chand (JC-665275Y), 01 Oct 2011*

Nb Sub Balwant Singh Saini (JC-665274W), 01 Oct 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Gunjeshwar Chauhan (JC-665201K), 12 Oct 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 03 Oct 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Jeewdhan Yadava (JC-665207L), 01 Nov 2011*

Nb Sub Parmil Prasad Singh (JC-665205A), 01 Nov 2011*

Nb Sub Hans Raj (JC-665210L), 01 Nov 2011*

Nb Sub Suresh Prasad Pandit (JC-665214F), 01 Nov 2011*

Nb Sub Jayvir Singh (JC-665277K), 01 Nov 2011*

Nb Sub Raj Bahadur Sharma (JC-665204X), 01 Nov 2011*

Nb Sub Shoraj Singh Meena (JC-665212W), 01 Nov 2011*

Nb Sub Rajender Singh (JC-665276F), 01 Nov 2011*

Nb Sub Ratan Singh (JC-665213Y), 01 Nov 2011*

Nb Sub Nanda Kumar TG (JC-665278M), 01 Nov 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Santhosh Pattanaik (JC-665203P), 01 Nov 2011*

Nb Sub Kapileshwar Ram (JC-665209W), 01 Nov 2011*

Nb Sub Mulayam Singh (JC-665206H), 01 Nov 2011*

Nb Sub Durga Dutt (JC-665208N), 01 Nov 2011*

Nb Sub Vinod Kumar (JC-665202M), 01 Nov 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Gupteshwar Prasad (JC-665198P), 01 Sep 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mahinder Prasad (JC-664975A), 01 Nov 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 28 Jun 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Shajimon K (JC-665219A), 01 Dec 2011*

Nb Sub Sunil Kumar Singh (JC-665215K), 01 Dec 2011*

Nb Sub Vargheese TP (JC-665280K), 01 Dec 2011*

Nb Sub Manjit Singh Yadav (JC-665282P), 01 Dec 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Suresh Singh (JC-665272L), 01 Dec 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub : (MT/SPL)

Hav Ravi Kumara BM (No. 13898892M now JC-667873P), 01 Sep 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2011 with effect on pay & allowances)

Hav Uma Shankar Rai (No. 13898807X now JC-667884F), 09 Nov 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Sukhwinder Kumar (No. 13898809H now JC-667891X), 29 Nov 2011*

Hav Braj Dulal Manjhi (No. 13896903N now JC-667892A), 28 Nov 2011*

Hav Abdul Kadir Ansari (No. 13898822M now JC-667894L), 30 Nov 2011*

Hav Akhilesh Kumar (No. 13899119L now JC-667895N), 30 Nov 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Kunjumon KC (No. 13898928Y now JC-667896W), 01 Dec 2011*

Hav Limbu Ram Mushahary (No. 13898937A now JC-667897Y), 01 Dec 2011*

Hav Gangaram Barman (No. 13896955K now JC-667900N), 01 Dec 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 with effect on pay & allowances)

Hav Sukhpal Singh (No. 14800181N now JC-667898F), 03 Dec 2011*

Hav Sher Pal Singh (No. 13896927X now JC-667899K), 02 Dec 2011*

Hav Shailendra Bahadur Singh (No. 13896969K now JC-667901W), 03 Dec 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 with effect on pay & allowances)

To be Sub : SKT

Nb Sub Sonune Sopan Ashiruji (JC-663550P), 01 Nov 2011*

Nb Sub Raffi Mohammad (JC-663554L), 01 Nov 2011*

Nb Sub K Duryodhan (JC-663800L), 01 Nov 2011*

Nb Sub Om Prakash Yadav (JC-663421P), 04 Nov 2011*

Nb Sub Babu Lal (JC-663524N), 01 Nov 2011*

Nb Sub Shaik Khasim Valli Sahib (JC-663549A), 01 Nov 2011*

Nb Sub Mukut Bihari Sharma (JC-663801N), 01 Nov 2011*

Nb Sub Ajitha Kumar R (JC-663522H), 15 Nov 2011*

Nb Sub Satyendra Singha (JC-663552A), 01 Nov 2011*

Nb Sub Uttam Singh (JC-663553H), 25 Nov 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2011 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kumre Sham Rao Janbaji (JC-663802W), 01 Dec 2011*

Nb Sub Raja Sekharan Pillai (JC-663900W), 01 Dec 2011*

Nb Sub Rajendra Kumar Singh (JC-663646X), 01 Dec 2011*

Nb Sub Prehladan PC (JC-663797W), 01 Dec 2011*

Nb Sub Parimal Kumar Mandal (JC-663647A), 01 Dec 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub : SKT

Hav Suresh Kumar (No. 6383610M now JC-667883Y),
08 Nov 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2011
without effect on pay & allowances)

RAVINDRA KUMAR ARORA
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR
BRANCH

No. 106, dated 2nd February 2012—The President is
pleased to make the following appointments/promotions:—

Hav to be Nb Sub SKT

Sudhansu S Chowdhury (No. 14614318W now JC-
766479M), 05 Dec 2011/01 Oct 2011*

Jitendriya Sahoo (No. 14614569A now JC-766662P),
12 Dec 2011/01 Dec 2011*

Anil Kumar (No. 14614366W now JC-766471A), 12 Dec
2011/01 Oct 2011*

Malavekar D D (No. 14614579K now JC-766665H), 08 Dec
2011/01 Dec 2011*

Sayyad Abdul Hirabhai (No. 14614572A now JC-766663X),
12 Dec 2011/01 Dec 2011*

Mahender Singh (No. 14614034M now JC-765927F),
01 Mar 2011

Gobinda Chakraborty (No. 14614461H now JC-766468A),
11 Nov 2011/01 Oct 2011*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Ashok Kumar Mishra (No. 14605812L now JC-766621L),
16 Dec 2011/01 Nov 2011*

R Prabhu (No. 14599807F now JC-766732H), 19 Dec 2011/
01 Nov 2011*

Dana Ram (No. 14604487K now JC-766619N), 25 Nov
2011/01 Nov 2011*

Ajit Das (No. 14602145X now JC-766656F), 01 Dec 2011

Hayat Singh (No. 14606030F now JC-766626K), 01 Dec
2011/01 Nov 2011*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (REC)

Ram Bilash Singh (No. 14592280P now JC-766679H),
14 Dec 2011/01 Dec 2011*

Daroga Singh (No. 14592282A now JC-766680X), 13 Dec
2011/01 Dec 2011*

Manoj Kumar (No. 14591973A now JC-766591Y), 02 Dec
2011/01 Nov 2011*

Gaj Bhare Vilas Shankar (No. 14598273P now JC-766598H),
01 Dec 2011/15 Oct 2011*

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn Elect

Sathish A (No. 14628067H now JC-766505H), 16 Nov
2011/01 Oct 2011*

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn AF

Rajesh Kumar Shukla (No. 14634628H now JC-766685W),
22 Dec 2011/01 Nov 2011*

Monoj Kumar Singh (No. 14635104N now JC-766688K),
22 Dec 2011/22 Oct 2011*

Kamlesh Kumar Yadav (No. 14634631H now JC-766686Y),
15 Dec 2011/22 Oct 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Artsnmet

Akhilesh Kumar (No. 14617032M now JC-766335K),
01 Dec 2011

Satish Kumar Sharma (No. 14617180X now JC-766336M),
01 Dec 2011

Hav to be Nb Sub Tech Comn

Doli Naresh (No. 14616091M now JC-766582X), 25 Nov
2011/01 Nov 2011*

Dodia Kamlesh Kumar Kanti Lal (No. 14616520H now JC-
766585L), 01 Dec 2011

Manavandi Gunasekaran A (No. 14616793L now JC-
766586N), 01 Dec 2011

Hav to be Nb Sub Auto Tech Engr Eqpt

L Birendra Kumar Singha (No. 14590868X now JC-
766595P), 01 Nov 2011

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Ramesh Kumar (No. 14589246K now JC-766631P), 01 Dec
2011

Ranjeet Kumar Upadhyay (No. 14588835N now JC-
766633A), 01 Dec 2011

Sarat Chandra Baral (No. 14589284A now JC-766634H),
01 Dec 2011

Ashok Kumar Tripathi (No. 14590299P now JC-766637W),
01 Dec 2011

Ram Lal (No. 14590693A now JC-766638Y), 14 Dec 2011/
01 Dec 2011*

Suresh Pal Singh (No. 14590617N now JC-766640W),
01 Dec 2011

Ramesh Prasad Rajbhar (No. 14589492P now JC-766641Y),
01 Dec 2011

Santa Kumar Singh (No. 14589495H now JC-766642F),
01 Dec 2011

Hav to be Nb Sub Armt AFV AD

Ram Agyan Yadav (No. 14590078H now JC-766650A),
01 Dec 2011

*(Gtd ante dated seniority)

HMT to be Nb Sub Master Tech B Veh

Asmal Khan (No. 14619927K now JC-766657X), 16 Nov
2011/01 Nov 2010*

Braja Gopal Bishal (No. 14624102H now JC-766538N),
31 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hans Raj (No. 14624217W now JC-766548X), 07 Nov
2011/01 Oct 2011*

Salve Anil Ambadas (No. 14624760P now JC-766577M),
02 Dec 2011/01 Dec 2011*

HMT to be Nb Sub Master Tech A Veh

Raj Kumar (No. 14628871K now JC-766030K), 14 Nov
2011/01 Apr 2011*

Bijumon L (No. 14628482K now JC-766557Y), 23 Oct 2011/
01 Oct 2011*

Subhash Chauhan (No. 14628676M now JC-766560Y),
08 Nov 2011/01 Nov 2011*

Rakesh Kumar Ranjan (No. 14631231L now JC-766643K),
12 Nov 2011/01 Nov 2011*

HMT to be Nb Sub Master Tech Avn AE

Jerry Bai P (No. 14626874Y now JC-766495K), 22 Nov
2011/01 Oct 2011*

HMT to be Nb Sub Master Tech Avn AF

Udaya (No. 14635619N now JC-766501M), 22 Nov 2011/
22 May 2011*

HMT to be Nb Sub Master Tech Avn Elect

Sudarsen Maharana (No. 14628241K now JC-766506L),
01 Nov 2011

HMT to be Nb Sub Master Tech SA

Sarjan Kumar (No. 14613314N now JC-766513F), 14 Nov
2011/01 Nov 2011*

HMT to be Nb Sub Master Tech Gun

Thippaiah MN (No. 14618334L now JC-766528K), 07 Nov
2011/01 Nov 2011*

Karunakar Biswal (No. 14618801X now JC-766533P),
16 Nov 2011/01 Oct 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 107, dated 2nd February 2012—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

To be Ris Maj (ASH)

Ris Nand Lal Jaiswal (JC-680682Y), 01 Oct 2010

Ris Karan Singh (JC-680738A), 01 May 2011

Ris Harendra Singh (JC-680790H), 01 May 2011

Ris Taga Ram (JC-680791L), 03 Sep 2011/01 Sep 2011*

Ris Ladu Ram (JC-680807L), 01 Oct 2011

Ris Pratap Singh (JC-680808N), 03 Oct 2011/01 Oct 2011*

To be Subs Ris (ASH)

Nb Ris Tarun Roy (JC-680916X), 18 Nov 2010/22 Jun
2010*

Nb Ris Diwakar Lal (JC-681010Y), 22 Oct 2010/01 Oct
2010*

Nb Ris Jhalaru Ram (JC-681011F), 01 Oct 2010

Nb Ris R B Bhagat (JC-681012K), 01 Oct 2010

Nb Ris Ranbir Singh (JC-681014P), 12 Oct 2010/01 Oct
2010*

Nb Ris Surendra Singh (JC-681015X), 01 Nov 2010

Nb Ris Sabeg Singh Aulakh (JC-681016A), 01 Nov 2010

Nb Ris Sanjiv Kishore Shukla (JC-681017H), 01 Dec 2010

Nb Ris Shyam Sunder Paul (JC-681021L), 01 Dec 2010

Nb Ris Man Singh (JC-681022N), 01 Apr 2011

Nb Ris Mahadeo (JC-681024Y), 01 May 2011

Nb Ris Vijayan T K (JC-681025F), 01 May 2011

Nb Ris Baljit Singh (JC-680994P), 23 Sep 2011/28 Jun
2011*

Nb Ris Bijai Kumar Yadav (JC-681023W), 16 Sep 2011/
28 Jun 2011*

Nb Ris Awdhesh Kumar (JC-681027M), 02 Aug 2011/
01 Aug 2011*

Nb Ris B K Singh (JC-681028P), 22 Aug 2011/01 Aug
2011*

Nb Ris R B P Singh (JC-681029X), 01 Aug 2011

Nb Ris R Ganesan (JC-681030M), 01 Oct 2011

Nb Ris Markande Thakur (JC-681031P), 01 Oct 2011

Nb Ris Gurumej Singh (JC-681033A), 01 Oct 2011

Nb Ris Jai Krishna Lal Das (JC-681034L), 02 Oct 2011/
01 Oct 2011*

Nb Ris Anil Kumar Ram (JC-681036N), 01 Oct 2011

Nb Ris Ram Keshwar Singh (JC-681037W), 01 Nov 2011

Nb Ris Pradeep Kumar Rout (JC-681039F), 01 Nov 2011

Nb Ris Ram Chander Yadav (JC-681040W), 01 Nov 2011

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef)

To be Nb Ris/Nb Sub (ASH/AT/SHGD)

Hav Mangal Singh (No. 6381071H now JC-681218F),
01 Jul 2010

Hav S S Dhobi (No. 6381190Y now JC-681219K), 01 Jul
2010

Daf D V Sitaram (No. 6482640M now JC-681220Y), 17 Jul
2010/01 Jul 2010*

Daf Lal Bahadur (No. 6482266P now JC-681221F), 04 Aug
2010/01 Aug 2010*

Daf Birendra Kumar (No. 6482283P now JC-681222K),
02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav Nirdosh Kumar (No. 6381294A now JC-681223M),
02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav Kathiravan G (No. 6381729X now JC-681224P),
01 Aug 2010

Daf B S Mawari (No. 6482285A now JC-681225X), 01 Sep
2010

Daf Saju P D (No. 6482291N now JC-681226A), 01 Sep
2010

Daf R S Upadhyay (No. 6382792Y now JC-681227H),
01 Sep 2010

Daf Ram Deo Singh (No. 6482315M now JC-681228L),
01 Sep 2010

Hav Naresh Singh (No. 6382115F now JC-681229N),
01 Sep 2010

Daf Paras Nath Pandey (No. 6482127L now JC-681230H),
18 Oct 2010/25 Sep 2010*

Daf Rohitas Kumar (No. 6482345K now JC-681231L),
08 Nov 2010/01 Oct 2010*

Daf Ravi Chandran K R (No. 6482346M now JC-681232N),
08 Nov 2010/01 Oct 2010*

Daf T G Dinkar (No. 6476647A now JC-681233W), 13 Dec
2010/01 Oct 2010*

Daf Vijay Rai (No. 6482385W now JC-681234W), 01 Nov
2010/01 Oct 2010*

Daf T James Raj (No. 6482105M now JC-681235F),
09 Nov 2010/01 Oct 2010*

Daf Bharat Singh (No. 6476833W now JC-681236K),
29 Nov 2010/01 Nov 2010*

Daf Ramjee Dubey (No. 6482349A now JC-681237M),
26 Nov 2010/01 Nov 2010*

Daf Pitamber Mohanta (No. 6482948A now JC-681238P),
15 Dec 2010/01 Nov 2010*

Hav Dev Raj (No. 6382586P now JC-681239X), 26 Nov
2010/01 Nov 2010*

Daf Durgesh Singh (No. 6482361F now JC-681240M),
14 Dec 2010/01 Nov 2010*

Daf Jagdish Chander (No. 6482368L now JC-681241P),
18 Dec 2010/01 Dec 2010*

Daf Dalip Singh (No. 6482370H now JC-681242X), 04 Dec
2010/01 Dec 2010*

Daf M C Joshi (No. 6482323L now JC-681243A), 15 Jan
2011/01 Dec 2010*

Daf V D Singh (No. 6483013M now JC-681244H), 23 Dec
2010/01 Dec 2010*

Hav B K Panigrahi (No. 6382815P now JC-681245L),
03 Dec 2010/01 Dec 2010*

Daf K Nagaraj (No. 6482387W now JC-681246N), 01 Dec
2010

Daf Ramanuj (No. 6383048N now JC-681247W), 06 Dec
2010/01 Dec 2010*

Daf Surjeet Kumar (No. 6482439F now JC-681248Y),
01 Jan 2011

Daf T N Mahesh (No. 6482450A now JC-681249F), 01 Feb
2011

Daf B C Rajan (No. 6482458M now JC-681250W), 02 Feb
2011/01 Feb 2011*

Daf Shiv Kumar Sah (No. 6482461H now JC-681251Y),
01 Feb 2011

Daf G P V Rao (No. 6482465H now JC-681252F), 01 Feb
2011

Daf K S Chowdhary (No. 6482479H now JC-681253K),
01 Apr 2011

Daf Mohan Singh (No. 6482481A now JC-681254M),
01 Apr 2011

Daf Vishwanath Singh (No. 6482483L now JC-681255P),
01 May 2011

Daf K B Shahi (No. 6482100N now JC-681256X), 02 May
2011/01 May 2011*

Daf Balu Patil (No. 6482485W now JC-681257A), 05 May 2011/01 May 2011*

Daf Jasbir (No. 6482489M now JC-681258H), 01 May 2011

Daf Bikham Singh (No. 6383194N now JC-681259L), 01 May 2011

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef)

RAVINDRA KUMAR ARORA
Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 108, dated 3rd February 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 27 Dec 2010 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)
(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt

Abhishek Mishra (MS-15712A) (MR-09232A), AMC, 25 Apr 2008 (MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Kaushik MR (MS-15715N) (MR-09231X), AMC, 25 Apr 2008 (MoD Notification published in Gazette of India dated 16 May 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Sharad Kumar Goel (MS-15704F) (MR-09233H), AMC, 25 Apr 2008 with seniority for pay and promotion from 25 Apr 2005 [this includes 36 months for antedate for Doctor of Medicine (Pathology) which will not count for gratuity]

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Maibam Chandramani Singh (MS-15630X) (MR-09235N), AMC, 06 Sep 2007 (MoD Notification published in Gazette of India dated 25 Dec 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Bipin Binod (MS-15889N) (MR-09236W), AMC, 12 Aug 2008 (MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Somali Pattanayak (MS-15505N) (MR-09234L), AMC, 26 Mar 2007 (MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

(ARMY BRANCH)

No. 109, dated 3rd February 2012—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Sep 2009:—

Pers No., Rank, Name and Arm

(IC-30750) Col(TS) Prabhat Kumar, Arty

(IC-31358) Col(TS) Arun Kumar Kapila, Inf

(IC-31400) Col(TS) Pravindrajit Singh Atwal, AC

(IC-31777) Col(TS) Barunava Sarker, Inf

(IC-31825) Col Rajbir Singh Raghu, Arty

(IC-31846) Lt Col Dhirendra Kumar Srivastava, Arty

(IC-34032) Lt Col Gian Singh Kadian, Inf

(IC-34116) Col(TS) Sarbjit Singh Malhari, Inf

(IC-34156) Col Bharat Chandra Mohanta, Arty

(IC-34172) Col(TS) Rajender Singh Narban, Arty

(IC-34174) Col(TS) Apurba Sikdar, Arty

(IC-34545) Col(TS) Pradeep Kumar Jain, AAD

(IC-34878) Col(TS) Raminder Pal Singh, Arty

(IC-34908) Col(TS) Dilawar Jang Bahadur, Inf

(IC-34982) Col Bharat Bhushan Khurana, Inf

(IC-35669) Col Medappa Codanda Ponnappa, Inf

(IC-35713) Col(TS) Paul George, Inf

(IC-35714) Col(TS) Gurdeep Singh, Inf

(IC-35803) Col(TS) Vishwanath Sundarshan Sharma, Engrs

(IC-36663) Col(TS) Ajay Singh Katoch, Inf

(IC-36910) Col Swaranjit Singh Narula, Arty

(IC-37050) Col Girish Kumar Mediratta, Arty

(IC-37056) Col Balraj Singh Grewal, AOC

(IC-37098) Col(TS) Hari Dev Vaid, Arty

(IC-37119) Col(TS) Shri Prakash Sharma, Arty

(IC-37123) Col Ran Singh Kadain, Inf

(IC-37255) Col(TS) Ashish Dass, Inf

(IC-37264) Col(TS) Pankaj Kumar Uppal, AC

(IC-37292) Col(TS) Dharmendra Singh, Arty

(IC-37351) Col Manoj Kumar Chaudhary, AOC

(IC-37501) Col(TS) Shamsher Bahadur Singh, Arty

(IC-37521) Col(TS) Joydeep Kotwal, Inf
 (IC-37655) Col Ganapathy Subramanian V, AOC
 (IC-38105) Col Madhu Sudan Kukshal, Inf
 (IC-39040) Col(TS) Rajinder Kumar, Engrs
 (IC-40276) Col(TS) Stanislaus Patrick Rajan, Engrs
 (IC-40420) Col(TS) Pradosh Kanti Das, ASC
 (IC-40443) Col(TS) Rajendra Singh Bhandari, ASC
 (IC-40452) Col(TS) Parm Jit Singh, Arty
 (IC-40602) Col(TS) Ram Raj Verma, Arty
 (IC-40611) Col(TS) Gillroy George, Inf
 (IC-40820) Col(TS) Johan Nanthicad Cyriac, Inf
 (IC-40898) Col(TS) Hari PV, Arty
 (IC-41300) Col(TS) Suresh Singh, Inf
 (SL-2934) Col Satya Pal Singh, Arty
 (SL-3151) Col Prem Lal Sharma, RO
 (SL-3602) Col Chamkaur Singh Dhaliwal, Sigs
 (SL-3759) Lt Col Govinda Narayana Samy, RO
 (SL-3819) Lt Col Sonara Vasant, EME
 (SL-3912) Lt Col P Joseph Mathew, QM
 (RC-1072) Maj Jose V Kolacheril, EME

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Oct 2009:—

(IC-31374) Col(TS) Vijay Kumar Kohli, Inf
 (IC-31408) Col Ram Chander Singh, Arty
 (IC-31422) Col(TS) Rakesh Pathak, Arty
 (IC-31659) Col Gyan Prakash, Arty
 (IC-31676) Col(TS) Nabyendu Kanti Bhattacharyya, Inf
 (IC-31701) Col Anil Kumar Sharma, Inf
 (IC-31749) Col(TS) Rajandra Singh Yadav, AAD
 (IC-31888) Col(TS) John Tewari, Inf
 (IC-34023) Col(TS) Anil Kumar Jule, Inf
 (IC-34079) Col(TS) Udai Bhan Singh Ranawat, AC
 (IC-34232) Col(TS) Shivajee, Int
 (IC-34526) Col(TS) Vishal Chander Bhatia, AC
 (IC-34533) Col Suresh Kumar Dogra, Arty

(IC-34535) Col Jatinder Mohan Singh, Inf
 (IC-34847) Col Devendra Nath Mathur, Inf
 (IC-34962) Col(TS) Vijendra Singh Chaudhary, Inf
 (IC-35008) Col(TS) Sunil Kumar Mehra, Inf
 (IC-35254) Col Sunil Saberwal, AC
 (IC-35321) Col Rajesh Kumar Pandey, Inf
 (IC-35342) Col(TS) Daljit Singh Sandhu, Inf
 (IC-35378) Col(TS) Sudhir Kumar Sharma, Inf
 (IC-35709) Col(TS) Surender Kumar, Inf
 (IC-35854) Col Tapan Kumar Manjee, EME
 (IC-35898) Col(TS) Rajendra Kumar Rao, Engrs
 (IC-37044) Col(TS) Subhash Ghildiyal, Inf
 (IC-37092) Col Vipin Wamanrao Vaidya, Inf
 (IC-37229) Col(TS) Kulwant Singh, AC
 (IC-37258) Col(TS) Benny Chungath Varghese, Engrs
 (IC-37268) Col Surjit Singh Josan, Inf
 (IC-37346) Col(TS) Ashwani Kumar Sood, Arty
 (IC-37401) Col(TS) Jitendera Rao, AOC
 (IC-37494) Col(TS) Charanjeet Singh Bhogal, Inf
 (IC-37596) Col(TS) Moti Lal, Inf
 (IC-38630) Col(TS) Kuldip Sharma, AEC
 (IC-40266) Col(TS) Devendra Nath Chowdhary, Engrs
 (IC-41152) Col Dev Raj Dhiman, Arty
 (IC-41180) Col(TS) Gian Chand Sharma, Inf
 (IC-41440) Col(TS) R Ganesan, Sigs
 (SL-3538) Lt Col Nagendra Kumar Chaturvedi, AE
 (SL-3567) Lt Col Satya Narayan Pal, AE
 (SL-3768) Lt Col Chandran KV, QM
 (SL-4013) Lt Col Somanathan VA, EMAE(SA)

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Nov 2009:—

(IC-30779) Col Ranjan Sharma, Arty
 (IC-31389) Col(TS) Sailendra Narayan Hota, Inf
 (IC-31620) Col(TS) Pramod Kumar, ASC (FIO)
 (IC-31639) Col Priotosh Deb, Mech Inf

(IC-31646) Col Ashok Kumar Yadav, AAD
 (IC-31807) Col(TS) Rajendra Gairola, Inf
 (IC-34038) Col Om Prakash Kashnia, AC
 (IC-34129) Col Satish Chander Singh Pathania, Inf
 (IC-34207) Col Rajeev Bhatnagar, AC
 (IC-34221) Col(TS) Darnaradjou Raja, Arty
 (IC-34250) Col Shashishekhar Anant Kulkarni, Inf
 (IC-34471) Col(TS) Varinderjit Singh Boparai, Inf
 (IC-34754) Col(TS) Praveen Kumar Ehersa, Inf
 (IC-34836) Col(TS) Manoj Tripathi, Inf
 (IC-34952) Col(TS) Asamanja Gain, Inf
 (IC-34967) Col(TS) Krishen Anoop Singh, Inf
 (IC-34972) Col Lakhpat Singh Yadava, Inf
 (IC-35148) Col Dhiren Shreeram Gawande, Arty
 (IC-35219) Col Govind Bhagwat, Inf
 (IC-35314) Col Devi Prasad Sreenivasa, Inf
 (IC-35373) Col Harinder Singh Sahi, Inf
 (IC-35543) Col Tarun Kumar Mukherjee, Arty
 (IC-35802) Col(TS) Chand Ram Jakher, AEC
 (IC-35809) Col(TS) Phaneendra Kumar, EME
 (IC-35839) Col(TS) Vinod Kumar Battish, Sigs
 (IC-36761) Col(TS) Santosh Kumar Hoshi, Inf
 (IC-37140) Col(TS) Radhakrishnan Premachandran Nair, Arty
 (IC-37358) Col(TS) Raj Kumar, Mech Inf
 (IC-37367) Col(TS) Yogesh Taragi, Inf
 (IC-37384) Col Nawal Kapoor, Arty
 (IC-38452) Col(TS) Hari Krishna Khandelwal, Sigs
 (IC-39957) Col(TS) Venugopalan PP, ASC
 (IC-40170) Lt Col Eswara Babu MC, Arty
 (IC-40598) Col(TS) Kanhaiya Lal Pathak, Engrs
 (IC-41281) Col(TS) Bachani Kanaiyalal Lilaram, Engrs
 (IC-41345) Col(TS) Kavya Kumar Pallissery, Inf
 (SL-3282) Lt Col Steephen S, EME
 (SL-3474) Lt Col Avtar Singh, Engrs
 (SL-3550) Lt Col Diwan Chand, QM

(SL-3686) Lt Col Hans Raj Chandel, EME
 (SL-3965) Lt Col Narinder Singh Sambial, RO
 (SL-3976) Lt Col Hari Singh, RO
 (RC-1053) Maj Natabar Jena, Sigs
 (RC-1076) Maj Ajit Singh Shivrain, Inf
 (RC-1102) Maj Mohanan EP, Sigs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Dec 2009 :—

(IC-31405) Col (TS) Pallab Kumar Majumdar, Inf
 (IC-31706) Col Binu Valeth John, Inf
 (IC-31741) Col (TS) Thingbaijam Nanda Kumar Singh, Inf
 (IC-31775) Col (TS) Ajay Kumar, Inf
 (IC-31783A) Col (TS) Sabyasatchi Mohanty, AC
 (IC-34065) Col (TS) Sayaji Ramrao Nikam, Mech Inf
 (IC-34085) Col (TS) Rajive Chauhan, Inf
 (IC-34187) Col Rajnee Kant Verma, Sigs
 (IC-34497) Col (TS) Shivinder Bir Singh, AC
 (IC-34513) Col (TS) Rakesh Kumar Sharma, Arty
 (IC-34530) Col (TS) Ashok Kumar Pant, Arty
 (IC-34610) Col (TS) Rakesh Chowdhary, Inf
 (IC-34784) Col (TS) Chhap Narayan Gurung, Inf
 (IC-34813) Col (TS) Sanjay Tripathi, Inf
 (IC-34913) Col Raman Datt Bali, Inf
 (IC-34959) Col Sudhir Acharya, Arty
 (IC-34963) Col Vinod Kumar Singh, Inf
 (IC-35002) Col Muthukrishnan Kumar, Mech Inf
 (IC-35695) Col (TS) Arun Kotnala, Inf
 (IC-35702) Col (TS) Krishna Menon M, Arty
 (IC-35704) Col Charan Kamal Singh Mann, Inf
 (IC-35881) Col (TS) Satinder Garg, Engrs
 (IC-36941) Col (TS) Arvind Nigam, Inf
 (IC-37094) Col (TS) Brij Mohan, Inf
 (IC-37220) Col Uttam Singh, Inf
 (IC-37241) Col (TS) Jagdish Chander, Inf

(IC-37261) Col (TS) Manjeet Singh Samra, Inf
 (IC-37430) Col (TS) Pramod Kumar, Arty
 (IC-37511) Col Raghu Nathan Nambiar, Arty
 (IC-37523) Col (TS) Mohinder Pal Singh, AC
 (IC-37608) Col (TS) Atul Bhatnagar, Arty
 (IC-37619) Col Nandan Singh Dhapola, Inf
 (IC-37626) Col (TS) Harendra Dutt Mishra, Arty
 (IC-37639) Col Kavadia Harish Morarji, Inf
 (IC-37661) Col Kulbir Singh Puri, Arty
 (IC-38194) Col (TS) Jacob Thomas Kadathil, AEC
 (IC-38208) Col Pradeep Paul, AEC
 (IC-39485) Col Satyavir Singh Yadav, Inf
 (IC-39989) Col (TS) Ajit Singh, AOC
 (IC-41405) Col (TS) Dhruv Singh Verma, ASC
 (SL-2740) Col (TS) Bhupendra Singh, APTC
 (SL-3125) Col PR Vijayan, RO
 (SL-3351) Lt Col Mallajoshiyula Visweswara Rao, RO
 (SL-3663) Lt Col Mohan Singh Rawat, QM
 (SL-3745) Lt Col Bharat Singh, Sigs
 (SL-3785) Lt Col Manmadan Nair P, RO
 (SL-3950) Lt Col P Jayadevan, EME
 (SL-4071) Lt Col Laxman Wasudeorao Gale, RO
 RC-1079 Maj NS Rathore, Inf
 RC-1083 Maj YN Patil, EME
 RC-1125 Maj Balvir Singh Sandhu, AC
 RC-1129 Maj Rana Krishna Bahadur, Inf

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Jan 2010 :—

(IC-40594) Col (TS) Kasinaath De, Inf
 (IC-31727) Col Ivor James Peoples, Inf
 (IC-34367) Col Chhotu Singh Rathore, AOC
 (IC-34370) Col (TS) Parasnath Shukla, Mech Inf
 (IC-34375) Col Edward Jeyraj, Arty
 (IC-34388) Col (TS) Parsi Madhavarao Gopinath, AAD
 (IC-34445) Col Shakir Jacob, AAD
 (IC-34468) Col Rajesh Pratap Singh, Inf
 (IC-34485) Col (TS) Vijay Kumar Sinha, Arty

(IC-34564) Col Puthenveetil Raghava Menon Ravi, Inf
 (IC-34857) Col Jaswinder Pal Singh, Inf
 (IC-35332) Col (TS) Vinai Kumar Kaushal, Inf
 (IC-35435) Col Rohit Mohan Chaudhri, Engrs
 (IC-35747) Col (TS) Rakesh Dubey, Inf
 (IC-36754) Col Kaushal Chaturvedi, Inf
 (IC-36889) Col (TS) Deepak Singh Kalakoti, EME
 (IC-37177) Col Ramchandra Singh, Inf
 (IC-37180) Col (TS) Vinay Kumar Singh Malik, Mech Inf
 (IC-37335) Col Rajinder Singh, Inf
 (IC-37550) Col Disouza Melville Andrew, Inf
 (IC-37658) Col (TS) Ajit Singh, Inf
 (IC-37710) Col (TS) Rajendra Singh Shatawat, Inf
 (IC-38073) Col (TS) Ashok Singh Patial, Inf
 (IC-38136) Col (TS) Anil Kumar Parmar, Inf
 (IC-38192) Col (TS) Kiran Kant Jaitley, EME
 (IC-38607) Col Debabrata Kundu, Engrs
 (IC-38639) Col (TS) Vinod Prakash Nautiyal, Sigs
 (IC-39096) Col (TS) Madhav Lalasaheb Sawant, AOC
 (IC-40316) Col (TS) Manu Satti, Arty
 (IC-40473) Col (TS) Padam Bahadur Thapa, Mech Inf
 (IC-40567) Col Agni Kumar Singh, ASC
 (IC-40666) Col (TS) Kapalli Subba Raju, Engrs
 (IC-41146) Col (TS) Gopal Singh Mehta, Inf
 (IC-41533) Col (TS) Ved Ram Sharma, Arty
 (IC-41539) Col (TS) Sunil Kumar Pandey, Sigs
 (IC-41691) Col (TS) Raghunath Swain, Engrs
 (SL-3702) Lt Col Jhirmal Jit Singh, Sigs
 (SL-2999) Col (TS) Joy Chaterjee, APTC
 (SL-3107) Col Ratan Mani Pradhan, SL QM
 (SL-3343) Lt Col Brij Mohan Tiwari, SL RO
 (SL-3662) Lt Col Abraham Peters, Arty
 (SL-3688) Lt Col Ramachandra KA, EME
 (SL-3764) Lt Col Ram Prasad Dimri, SL QM
 (SL-3857) Lt Col HP Sarkar, EMAE (SA)

(SL-3860) Lt Col Patan Din Singh, EME

(SL-3886) Lt Col Avinash Kumar, Engr

(SL-4021) Lt Col Sukhdev Raj, SL QM

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 28 Feb 2010 :—

(IC-34064) Col Anumukanda Ramesh Mohan, Engrs

(IC-34459) Col Nagender Kumar Verma, Arty

(IC-34578) Col (TS) Santosh Narayan Sabnis, Inf

(IC-34596) Col Ajai Mohey, Inf

(IC-34627) Col (TS) Pradeep Dixit, Inf

(IC-34896) Col (TS) Vinay Kumar Mohia, ASC

(IC-34934) Col (TS) Avtar Singh Mann, Inf

(IC-34998) Col Sarachandra Balu Nailininilayam Janardhanan, Inf

(IC-35012) Col (TS) Vinod Gopalan, Inf

(IC-35217) Col Pradeep Rana, Inf

(IC-35311) Col (TS) Bipin Pal Bhalla, Inf

(IC-35329) Col Anil Bhatia, Inf

(IC-35345) Col (TS) Daljeet Singh, AC

(IC-35355) Col (TS) Rahul Dattray Gupte, AOC

(IC-35363) Col (TS) Suresh Sharma, Arty

(IC-35400) Col (TS) Mohinder Pal Singh Padam, Sigs

(IC-35682) Col (TS) Kurigekal Stephen Jos, Mech Inf

(IC-35693) Col (TS) Maninder Johur, AC

(IC-35720) Col Nishil Kumar Mathur, Arty

(IC-35787) Col (TS) Ajai Yadav, Inf

(IC-37079) Col (TS) Harpal Singh Rai, Engrs

(IC-37332) Col Mohan Pandurang Patil, Inf

(IC-37426) Col (TS) Vinod Narayanrao Bari, Inf

(IC-37499) Col Harbinder Singh, Inf

(IC-37522) Col (TS) Ripu Daman, Arty

(IC-37528) Col (TS) Kanwar Raj Kanwal Singh, Arty

(IC-37551) Col (TS) Sunil Kumar Patnaik, Mech Inf

(IC-37565) Col Sukhwant Singh Sekhon, Arty

(IC-38059) Col (TS) Mukesh Kumar Gupta, Arty

(IC-38246) Col (TS) Gurdeep Singh Goraya, Engrs

(IC-40418) Col (TS) Pawan Kumar, AOC

(IC-40983) Col (TS) Dimbeswar Baruah, Engrs

(IC-41448) Col (TS) Khushwant Singh, Engrs

(SL-3266) Lt Col Keshar Singh Bhainsora, AOC

(SL-3391) Col Subhsh Chander, Sigs

(SL-3716) Lt Col Vinayak Mahadeo Thosar, SL QM

(SL-3762) Lt Col Kaman Singh Gurung, Arty

(SL-3777) Lt Col Ram Dass Bharadwaj, SL RO

(SL-3856) Lt Col Santosh Kumar Chauhan, EME

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Mar 2010 :—

(IC-31792) Col (TS) Kishore Arjun Ruperee, Inf

(IC-34108) Col (TS) Santosh Kumar Prusty, Inf

(IC-34478) Col Kulwinder Jit Singh, Inf

(IC-34505) Col (TS) Mahapratap Singh Gill, Arty

(IC-34534) Col (TS) Pradeep Pande, AC

(IC-34842) Col Madhav Vishnu Vesvikar, Inf

(IC-34874) Col (TS) Abhimanyu Swain, Inf

(IC-34965) Col Satnam Singh Bagga, Arty

(IC-35117) Col (TS) Hari Ram Poonia, Mech Inf

(IC-35882) Col (TS) Vasudev Lalwani, EME

(IC-37139) Col Thypparampil Joseph Davies, AC

(IC-37237) Col (TS) Manickam Arumugam, Engrs

(IC-37294) Col Hitendra Bahadur, Inf

(IC-37466) Col Jagat Singh Mehta, Inf

(IC-37510) Col (TS) Rama Mohan Kumar, AOC

(IC-37636) Col (TS) Bhabagrahi Jhatk Singh, Inf

(IC-37693) Col (TS) Prakash Sharma, Inf

(IC-38078) Col (TS) Prasanna Kumar Mishra, Inf

(IC-38178) Col (TS) ES Sathyasesan, Inf

(IC-38191) Col (TS) Rakesh Kumar Sharma, Engrs

(IC-38616) Col (TS) Ravindra Balkrishna Bapat, AAD

(IC-39044) Col (TS) Jagdish Prasad Sahu, EME

(IC-39663) Col (TS) Deen Dayal, Inf

(IC-39805) Col (TS) Sultan Singh Malik, EME

(IC-40338) Col (TS) Baldev Singh, Arty

(IC-40931) Col (TS) Shekhar Chandra Pandey, Arty

(IC-41728) Col (TS) Jaswant Singh Pandher, Arty

(IC-42975) Lt Col Mohan Singh, AOC

(SL-3317) Lt Col Puran Chand, QM

(SL-3338) Lt Col Kuldip Singh, RO

(SL-3547) Lt Col Shri Pal Chahal, RO

(SL-3675) Lt Col Amarjit Singh, QM

(SL-3789) Lt Col Partha Mazumdar, RO

(SL-3864) Lt Col Prafulla Kumar Nanda, Sigs

(SL-3878) Lt Col Sumitar Singh, QM

(SL-3918) Lt Col Kar Subal Kumar, Sigs

(SL-4057) Lt Col Ganga Singh, Engrs

(V-366) Col Mukhwinder Jit Singh Gill, RVC

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Apr 2010 :—

- (IC-34877) Col Pothery Cheruvery Dhanraj, Inf
 (IC-34384) Col Balram Pal Singh, AC
 (IC-34435) Col (TS) Balasaheb Purushottam Patil, AAD
 (IC-34439) Col (TS) Shibben Chandra Roy, Inf
 (IC-34476) Col Aneel Misra, ASC
 (IC-34616) Col (TS) Subash Chandra Chadha, ASC
 (IC-34634) Col Prashanta Kumar Sahu, Sigs
 (IC-34834) Col Garugu Raghu Rami Reddy, Arty
 (IC-34863) Col (TS) Vasudevan Nair Bhagavan Prasad, Inf
 (IC-34870) Col (TS) Raj Mohan Mangaraj, Arty
 (IC-34909) Col Harmohinder Singh Chauhan, Inf
 (IC-35133) Col (TS) Narjit Singh, AC
 (IC-35328) Col (TS) Balakrishnan Suresh Kumar Nair, Inf
 (IC-35582) Col (TS) Parminder Singh Sandhu, Inf
 (IC-35792) Col (TS) Ram Chandra Chowdhry, Engrs
 (IC-36881) Col Umesh Chandra, Sigs
 (IC-37018) Col Deepinder Singh Sarao, Arty
 (IC-37216) Col (TS) Yudhvir Singh Andotra, Inf
 (IC-37354) Col Deepak Raina, AOC
 (IC-37383) Col (TS) Jaswant Singh, AAD
 (IC-37403) Col (TS) Pisharody Jayakrishnan, Sigs
 (IC-37469) Col (TS) Koilpitchai Jacob Christadas Jeldo, AC
 (IC-37478) Col (TS) Ashok Shripad Naik, Arty
 (IC-37505) Col Vijayakumar P, Inf
 (IC-37599) Col (TS) Kulwant Singh Sekhon, AOC
 (IC-37621) Col (TS) Narinder Singh Khatri, Int
 (IC-37631) Col (TS) Virender Kumar, Arty
 (IC-38153) Col (TS) Vinod Cherian, AAD
 (IC-38594) Col Subhashish Chowdhury, Engrs
 (IC-38614) Col (TS) Sunil Kumar Sehgal, Sigs
 (IC-39427) Col (TS) Arun Kumar Gandhi, EME
 (IC-39835) Col (TS) Ghazanfar Hussain, Engrs
 (IC-39963) Col (TS) Ravi KPV, Arty
 (IC-40388) Col (TS) Dewa Namgyal Bhotia, Arty
 (IC-40553) Col (TS) Madan Singh Negi, AOC
 (IC-40687) Col Rajasekaran S, AOC
 (IC-41285) Col (TS) Swarup Chand, Mech Inf
 (IC-41336) Col (TS) Anant Charan Behera, Inf
 (IC-41558) Lt Col Dilbagh Singh, ASC
 (IC-41615) Col (TS) Balbir Singh, Inf
 (SL-3149) Col Jagdev Singh, RO

- (SL-3168) Col Mani Ram Yadav, Arty
 (SL-3248) Lt Col Kishor Chandra Gildiyal, Sigs
 (SL-3793) Lt Col Avtar Singh Minhas, QM

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 May 2010 :—

- (IC-31738) Col (TS) Vijay Kumar Rastogi, Inf
 (IC-34134) Col (TS) Raj Kumar Sharma, AC
 (IC-34390) Col Sukhjot Singh Yadav, Arty
 (IC-34580) Col (TS) Buddha Bikash Gohain Baruah, Arty
 (IC-34584) Col (TS) Rajiv Vohra, Arty
 (IC-34767) Col Dharam Chand Sharma, Inf
 (IC-34810) Col (TS) Iqbal Singh Roperia, Inf
 (IC-34919) Col (TS) Akashdeep Anand, Inf
 (IC-34923) Col (TS) Rajeev Sood, Arty
 (IC-34930) Col Rajendra Kalyan Borker, Arty
 (IC-35107) Col (TS) Uttam Wamanrao, ASC
 (IC-35209) Col (TS) Satender Nath Gupta, Inf
 (IC-35255) Col Kanwar Krishen Badam, AAD
 (IC-35259) Col Alok Bajpai, Engrs
 (IC-35299) Col (TS) Mohamed Yusuf Stalin, Inf
 (IC-35677) Col Amarjit Singh, Arty
 (IC-35733) Col Ravinder Singh Dagar, Arty
 (IC-35740) Col (TS) Rajendra Dev Kaushik, Inf
 (IC-37025) Col (TS) Narinder Singh Dugal, Inf
 (IC-37051) Col (TS) Maninder Paul Singh Mainee, Arty
 (IC-37215) Col (TS) Naresh Kumar Singh, Inf
 (IC-37231) Col (TS) Parmjit Singh, AOC
 (IC-37322) Col (TS) Vijay Kumar Prasad, AOC
 (IC-37336) Col (TS) Samunder Singh Sangwan, Inf
 (IC-37446) Col Vijayan Kannuvellil Easwaran, Engrs
 (IC-37537) Col Narain Dadasaheb Patil, Engrs
 (IC-37568) Col (TS) Rai Bahadur Singh Kanwar, Inf
 (IC-37600) Col (TS) Raman Kumar Sawhney, Inf
 (IC-37633) Col (TS) Nambiar Raghunathan M Raghavan, Inf
 (IC-38074) Col Jasbinder Singh Sekhon, Inf
 (IC-38238) Lt Col Kollukuduru Sudhakara Reddy, AEC
 (IC-38634) Col (TS) Peeush Joshi, EME
 (IC-39416) Col (TS) Sanjeev Kumar Sharma, Sigs
 (IC-40524) Col (TS) Kailash Kumar Kaushal, Inf

(IC-40583) Col (TS) Pritam Chand Kaundal, Arty
 (IC-40625) Col (TS) Keshwa Prasad Mishra, EME
 (IC-40632) Col (TS) Kadur Malleshi, Engrs
 (IC-40650) Col (TS) T David Prasad, Inf
 (IC-40780) Lt Col Surjit Singh, Arty
 (IC-41014) Col (TS) Mohan Lal Tiwary, Arty
 (IC-41322) Col (TS) Kothivale Kailas Baburao, Engrs
 (IC-41584) Col (TS) Narendra Kumar Singh ASC
 (IC-41777) Col (TS) Bahuleyan Nair G, Inf
 (IC-42082) Col (TS) Deshukh Panjab, Sigs
 (SL-3152) Col Sukhvinder Singh, RO
 (SL-3281) Lt Col Ajmel Singh, EME
 (SL-3535) Lt Col Subhash Singh Pathania, RO
 (SL-3756) Lt Col Ganga Lal Rayar, RO
 (SL-3808) Lt Col Ajit Singh, EME
 (SL-3990) Lt Col Yashpal Singh, RO

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Jun 2010 :—

(IC-34188) Col Ramesh Pratap Singh, Inf
 (IC-34514) Col (TS) Bhuwaneswar Bareth, Inf
 (IC-34601) Col (TS) Asish Kumar Bose, Arty
 (IC-34771) Col (TS) Vibhav Prakash Tripathi, Inf
 (IC-34772) Col Jagdish Chandra Mehendiratta, Inf
 (IC-34807) Col Rajendra Pal Singh Rawat, Engrs
 (IC-34809) Col (TS) Rajvir Singh Ahlawat, Inf
 (IC-34819) Col (TS) Dipendra Kishore Kachari, AC
 (IC-34871) Col (TS) Devinder Kumar, Arty
 (IC-34924) Col (TS) Ratan Singh, Inf
 (IC-34946) Col (TS) Bhanudas Vitthal Katkar, AC
 (IC-34955) Col (TS) Anand Sharma, Inf
 (IC-35192) Col (TS) Gurmeet Singh, AOC
 (IC-35247) Col (TS) Awadhesh Kumar, Inf
 (IC-35274) Col Vinod Kumar, Inf
 (IC-35414) Col (TS) Indra Vir Singh Sesodia, Sigs
 (IC-35492) Col Digamber Anand Rao Patil, Inf
 (IC-35590) Col (TS) Ranjit Chatterjee, Arty
 (IC-35649) Col Vijay Kumar Singh, Arty
 (IC-35775) Col (TS) Sukumaran Kandankote Suresh, Arty
 (IC-37029) Col (TS) Rajaram Parshuram Mahekar, Inf
 (IC-37060) Col (TS) Bharat Bhushan, Arty

(IC-37147) Col (TS) Jagdeep Raj Sharma, AAD
 (IC-37266) Col (TS) Abhay Kumar Dixit, AOC
 (IC-37308) Col Raman Kumar Mehra, Engrs
 (IC-37364) Col (TS) Ashok Kumar Arya, Arty
 (IC-37495) Col (TS) Pitohumani Jayaraj, Inf
 (IC-37566) Col Tejinder Singh Brar, Inf
 (IC-37613) Col (TS) Anil Prakash Tyagi, Inf
 (IC-37685) Col Harjinder Jit Singh, AOC
 (IC-37691) Col (TS) Satinder Vir Singh, Inf
 (IC-38154) Col M Shrikumar Nair, Inf
 (IC-38252) Col (TS) Anil Kumar Upreti, AEC
 (IC-39032) Col Akhade Shashikant Nivrutti, Sigs
 (IC-39850) Col (TS) Anupam Shukla, Engrs
 (IC-39974) Col (TS) Ghanshyam Mishra, Arty
 (IC-40325) Col (TS) Hirday Narain Kaushal, EME
 (IC-40670) Col (TS) Kulwant Singh, Engrs
 (IC-41031) Col (TS) Subramanian C, Inf
 (IC-41093) Col Joy Daniel, Arty
 (IC-41678) Col (TS) Radha Raman Paliwal, AOC
 (IC-41697) Col (TS) Shambhu Nath Sharma, Inf
 (SL-3562) Lt Col Jayanarayanan P, EME
 (SL-3922) Lt Col Hakim Singh, QM
 (SL-3975) Lt Col Baldev Singh, RO
 (SL-4019) Lt Col A Padmanabhan, Sigs
 (SL-4102) Lt Col M Manickam, QM

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Jul 2010 :—

(IC-34404) Col Ajeet Pal Singh, AOC
 (IC-34639) Col (TS) Birendra Singh Rawat, Inf
 (IC-34778) Col (TS) Laspreet Singh Mangat, Sigs
 (IC-34881) Col Mukesh Malhotra, Arty
 (IC-35162) Col Kanwal Kumar Sharma, Inf
 (IC-35190) Col (TS) Jagdeep Mohan Arora, Inf
 (IC-35245) Col (TS) Suresh Purushottam Gadgil, Inf
 (IC-35474) Col Madan Mohan Shukla, Inf
 (IC-35514) Col Vijay Kumar Madan, Arty
 (IC-35768) Col Ashok Kumar Sharma, Arty
 (IC-35979) Col Jaswinder Singh Suraj, Inf
 (IC-37026) Col Johan Sampath Kumar Rao, Inf
 (IC-37262) Col (TS) Sudhir Kumar Chaturvedi, Inf

(IC-37271) Col Rajive Sood, AOC
 (IC-37365) Col (TS) Kishore Singh Jodha, Inf
 (IC-37405) Col (TS) Govindaswamy Pratap Raju, Arty
 (IC-37526) Col (TS) Kamal Kumar Chaudhary, AC
 (IC-37765) Col Pradip Kumar Sinha, Arty
 (IC-38119) Col (TS) Mahipal Singh Yadav, Arty
 (IC-38166) Col (TS) Ravinder Singh, AOC
 (IC-38212) Col (TS) Ganesh Chandra Shah, EME
 (IC-38462) Col Vimal Kumar, Arty
 (IC-39024) Col Krishan Kumar Pahuja, Engrs
 (IC-39861) Col (TS) Konanur Suryanarayanappa Venkatesh, EME
 (IC-40460) Col (TS) Bhanu Bhakta Lekhak, Arty
 (IC-40938) Col (TS) Niranjan Pati, Arty
 (IC-41059) Col (TS) Rajvir Singh, EME
 (IC-41262) Col (TS) Surinder Kumar Sharma, Arty
 (IC-41617) Col (TS) Surinder Singh Sambyal, Inf
 (IC-41798) Col (TS) Ram Shanker Saxena, AOC
 (IC-42046) Col Shivinder Singh, Inf
 (IC-42112) Lt Col Ram Sagar Shukla, Engrs
 (IC-42114) Col (TS) Shankar Prasad Shukla, Engrs
 (SL-3677) Lt Col Ajay Kumar, EME
 (SL-3815) Lt Col Mehar Singh, EME
 (SL-4051) Lt Col AA Rethinam, QM

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Aug 2010 :—

(IC-31123) Col Manmohan Singh Jaswal, Jag
 (IC-34364) Col Gur Kirat Singh, Inf
 (IC-34555) Col Sandeep Kumar, Inf
 (IC-34763) Col Anil Kant Sharma, AC
 (IC-34826) Col (TS) Vipen Kishore Khullar, Inf
 (IC-34997) Col Sunil Bali, Inf

(IC-35178) Col Rajvir Singh Chillar, AOC
 (IC-35184) Col (TS) Birju Singh Rathore, AAD
 (IC-35203) Col (TS) Rajiv Ahluwalia, AAD
 (IC-35240) Col (TS) Shakti Kumar Jetly, Arty
 (IC-35253) Col (TS) Anil Bali, Inf
 (IC-35268) Col (TS) Kushal Kumar Sircar, Inf
 (IC-35322) Maj Amar Jit Singh Bajwa, ASC
 (IC-35638) Col (TS) Mohitosh Mukherjee, Inf
 (IC-35778) Col (TS) Devinder Singh, Arty
 (IC-37175) Col Virender Chand Katoch, AC
 (IC-37270) Col (TS) Hemant Bhouraskar, Inf
 (IC-37541) Col Sudarshan Singh Bisht, Inf
 (IC-37624) Col (TS) Paramjit Singh Bains, Inf
 (IC-37629) Col (TS) Narinder Singh Sujlana, AOC
 (IC-37635) Col (TS) Unni Chandra Shekhar, Inf
 (IC-37666) Col (TS) Satnam Singh, Arty
 (IC-37718) Col (TS) Vijay Raj Singh, Inf
 (IC-37721) Col (TS) Prashant Kumar CV, Inf
 (IC-38049) Col Anil Malik, Inf
 (IC-39403) Col (TS) Deepak Gupta, Engrs
 (IC-39820) Col Mahesh Kumar Bhardwaj, EME
 (IC-39827) Col (TS) Jatinder Singh Dhiman, AEC
 (IC-40667) Col (TS) Virendra Kumar Choubey, Engrs
 (IC-41199) Col (TS) Pratap Singh, Arty
 (IC-41800) Lt Col Vinod Kumar Goindi, ASC
 (IC-42196) Col (TS) Yashvir Singh, Inf
 (IC-42243) Lt Col Emmanuel Pavithradarshan Dayal, Engrs
 (SL-3721) Lt Col Abhilash Singh, Sigs
 (SL-3810) Lt Col Bhide Sunil Vasudeo, EME
 (SL-4149) Lt Col Ravinder Singh Shahi, RO
 (SL-4372) Maj Raj Kumar Gurung, AEC

JAYANTA CHAKRABARTY
 Dy Dir
 MS-7A